

प्रमाणवादी
और शहद
का
गाँव

THE LAND
OF LOVE
& HONEY







Book illustrations
Deeganto Joardar
Anisha Shankar
A section of the photos
in this book have been shot at
Under the Mango Tree, Palghar



इस किताब को पढ़ने के निर्देश

हमें खुशी है कि आप सबकी एक नई रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है!

इस किताब को शुरू करने से पहले कुछ निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं!

किताब निम्नलिखित भागों में विभाजित है:

- ग्राफिक नोवेल
- बुलेट जर्नल
- ब्रैंडिंग
- अभ्यास (अलग से दिया जाएगा)
- कौशल शब्दकोश



पहले आप नोवेल को पढ़ें फिर एक-एक करके उसके हर भाग को पढ़ें।

हर भाग को पढ़ते हुए आपको उसमें कौशल शब्दकोश मिलेगा वह ऐसा दिखता होगा। आप जब भी उसे पढ़ें तो उसके दिए हुए मतलब को समझने की कोशिश करें।

जब आप किताब अंته से पढ़ चुके हों तो अभ्यास पुस्तिका की चुनौतियों को हल करने का प्रयास करें। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।

How to Read This Book

We're so excited that you're about to embark on a new adventure!

Before you start, here are some things to keep in mind so you get the best out of this book.

This book is divided into the following sections:

- Graphic novel
- Bullet Journal
- Branding
- Activity (Will be given separately)
- Skills glossary

You should start with reading the novel and then continue reading each section in the above order. As you read each section, you will see skills icons through the book. They look like this:



You should keep turning to the skills glossary to know more about the skills icons and their meanings.

Once you complete reading the book, solve the challenges in the activity book. Happy reading!



मुजफ्फरपुर MUZAFFARPUR

बिहार BIHAR





रात फिर आई थी गांव में कान्ही अंधेरा था।
It's night. The village is dark.



पर के अंदर से शोर आ रहा था।
A family argues over dinner.



शेवर्न का अंधेरा



स्कूल जाने से कुछ नहीं होगा पर के काम में हाथ बंटाओ।
What use is school? It's better you sit at home, be useful!

पवन, सरपंच व ज्योति के पिता
Pawan, Sarpanch/ Jyoti's father



जुवान लड़ना बंद करो। दिल्ली से लड़के बोलें आ रहे हैं। लड़का टैक्सी चलाता है। तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है।
I've found a boy for you from Delhi who drives a taxi. You will get married to him. Don't talk back to me!

ज्योति
Jyoti

पिताजी, मैंने कब कुछ कहा है।
Papa, I didn't say anything.



तुम चुप रहकर
काफी कुछ कह
जाती हो।
Your silence
speaks
volumes.

सुलेखा, ज्योति की दादी माँ
Sulekha, Jyoti's grandma

ज्योति की दादी माँ सुलेखा और माँ
रतना को इस बात से दुख हुआ। क्या
लड़कियों के लिए कुछ नहीं बदला?
Pawan's words upset Jyoti's
grandmother Sulekha and
mother Ratna. Has nothing
changed for girls?

रतना, ज्योति की माँ
Ratna, Jyoti's mother

ज्योति का बड़ा भाई सौरभ भी चुप रहा।
Saurabh, Jyoti's brother, says nothing.

अगले दिन, ज्योति परेशान थी। वह अपनी दोस्त अमीना
और जरीन के साथ स्कूल से घर जा रही थी।
The next day, as they walk home from
school, Jyoti's friends Amina and Zarine
notice that she is upset.



अमीना / अमीना
Amina / अमीना

ज्योति / ज्योति
Jyoti / ज्योति

जरीन / जरीन
Zarine / जरीन

सुबह से देख रही हूँ, तुम
परेशान सी लग रही हो?
You've been upset
since morning,
Jyoti. What's
bothering you?

बस थोड़ा
सिरदर्द है।
I don't feel
too well.









फिर से शादी की बात
हुई? तुम्हारे पापा भी न...
Oh! The marriage
talk again. Really,
Pawan uncle needs
to stop...



उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे
पढ़ना है। मेरे कुछ सपने हैं।
मुझे मधुमक्खी पालन सीखना है।
How do I explain to him that
I want to study, that I have
dreams? I want to be
a **beekeeper**.


ज्योति चुप रहने से काम नहीं चलता।
अपनी बात कहनी पड़ती है। जब तुमसे यह नहीं हो
सका तो शहर की खोज के लिए एक जाह
से दूसरी जाह कैसे जाओगी?
Yes, but staying silent won't help you.
You have to **speak up**. If you can't do
this, how will you travel from village to
village learning beekeeping?



सपने मेरे हैं तो उन्हें पूरा भी मैं करूँगी।
तुम बताओ कब चलना है?
You're right. I'll never give up easy.
These are my dreams. I'll find a way.
You just let me know when
we're leaving.



मैं अपने माता-पिता से बात करूँगी
कि तुमको भी साथ ले जाएं। तुम बस तैयार
रहना। बाकी वाट्सऐप पर बातती हूँ।
Fantastic! I'll tell my parents that
you're joining us. I'll WhatsApp the
rest of the plan. Stay ready.



अमीना और जरीन ने अपने पिता आमीर और मां फरहीन से बात की।
Amina and Zarine explain Jyoti's situation to their father Amir and mother Farheen.



Farheen / फरहीन

Amir / आमीर

मां फरहीन बोली 'वक्त आने पर ज्योति के पिता से भी बात करेंगी'
When the time is right, says Farheen, they will speak to Jyoti's father.



अरे दरवाजा कोई खोलता या नहीं?
See who it is, Jyoti.

नहीं काम कर रहा हूँ।
I can't. I'm working.



जब देखो मोबाइल में लगी रहती हो।
I will confiscate your mobile if you disobey me.



पालन महाराष्ट्र की महिलाएं दूसरी महिलाओं को मधुमक्खी पालन का फायदा बताते हुए।






दिल्ली से लड़के वाले आए हैं।
It is the boy's family from Delhi.





अपने सपनों को सब करने के लिए कई बार अपनी से दूर जाना पड़ता है।
 Sometimes, in order to make your dreams come true,
 you have to leave behind the ones you love...









सही कहा!
True!

दैन्य की रोशनी में ज्वाला
मल फूले। आँखें खराब हो
जाएँगी। अब आराम करो।
But reading in the
torchlight is not good
for the eyes, either. Get
some sleep now, girls.



थोड़ी देर और.....
In some time...

तुम
दृढ़निश्चयी लड़की हो।
You're quite
determined.
aren't you?





बर कर्ण!
 अण ज्योति, अमीना और
 जरीन भी नही आई?
 Have Jyoti, Amina
 and Zarine also not
 come to class today?



दिन-भरिदिन लड़कियों की
 संख्या कम होती जा रही है!
 The strength of the
 class keeps reducing
 day by day...



शोम बनाने की प्रक्रिया



इस प्रक्रिया के अंदर शोम का एक बड़ा सा टुकड़ा बनकर तैयार हो जाता है।





बात नभीर हो गई थी। ज्योति के परिवारले पुलिस के पास पहुंचे।
A few days later, Jyoti's family approaches the police.

ऐसा पुलिस स्टेशन जिसे महिला पुलिसकर्मी चलाती थी।
The police station is run by women.




परिवार के बाकी सदस्य पीछे से मना करने लगे।
From behind, Jyoti's family signals the policewoman to not file the F.I.R.

लगता है कुछ गड़बड़ है।
Seems like something is wrong.






आप मामला दर्ज मत कीजिए, ज्योति जल्द आ जाएगी।
Please don't file an F.I.R. Jyoti will be back soon.



मुझे सारी बात साफ-साफ बताओ।
What do you mean? Tell me everything clearly.



ज्योति मामली लड़की नहीं है। होनहार है। पवन उसकी शादी करवाना चाहते थे। पर वह पहले अपना सपना पूरा करना चाहती थी। वह अपनी सहेली के साथ अलाग शहर में मयूषमखी पालन सीखने गई है।
Jyoti wants to study and learn beekeeping but my husband wants to get her married. Jyoti has gone with her friends and their family to learn beekeeping.



मतलब पवन झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? क्या आपको पता नहीं झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना जुर्म है।
So, is Pawan filing a false report, then? That's a crime.



पवन को कुछ भी नहीं पता। आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए।
No! He doesn't know anything about this so please don't file the report. Please understand.



समझा गई। अभी तो वह बहुत छोटी है।
I see. Okay, I agree, she's too young to get married.



मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए।
Please find my daughter.


परेशान मत होइए, ज्योति मिल जाएगी।
We will soon find Jyoti.



पुलिस ने ज्योति के पिता की तसल्ली के लिए कुछ जानकारीयें ले ली।
The policewoman takes down a few details to assuage Pawan.



ट्रक झारखंड पहुंच गया।
The truck reaches Jharkhand.



आप लोग यहीं रुको
नै गांव के किसानों से
बात करके आता हूँ।
Wait here, I'll
go **speak** to the
village farmers.



मधुमक्खियों के बक्सों को
आपके खेत में रख सकते हैं।
May we keep
our honey bee
boxes in your
fields?

बिल्कुल
Absolutely!



संभल कर,
यह भारी है।
Careful!
They're heavy.


इन्हें खुलने से
रोकना है।
Make sure they
don't open up.



TEAM WORK
सामूहिक कार्य

मधुमक्खियाँ परागण करती हैं।
जिससे पेड़ ज्यादा फलते-फूलते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन भी
देते हैं। इससे गह की गर्मी कम होती है अतः जलवायु परिवर्तन में
Bees help in **cross-pollinating** trees,
plants, crops. More trees and plants means
more **oxygen**, which helps reduce the bad
effects of the **Climate Crisis**.

वाह! इन किताबों में
मधुमक्खी पालन पर क्या
बढ़िया जानकारी दी गई है।
Wow! These **books**
give such **useful**
information on
beekeeping.





आमिर पत्र लिखने लगे।
Amir writes a letter.

आपकी तरह मेरी भी बेटी है, इसलिए
आपको बालाग मेरी जिम्मेदारी है कि जगति
हमारे साथ झारखंड में सुरक्षित है।
I too have daughters just like you. Which is why I feel
responsible to let you know that Jharkhand
safe in Jharkhand.




ज्योति झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा-अला गाँवों में पहुँच कर मधुमक्खनी पालन सीख रही थी।
 Jyoti learns beekeeping in Jharkhand and Chattisgarh.



वही स्कूल में लड़कियों का आना कम होता जा रहा था।
 Back in the village school, the strength of the class reduces daily.







ज्योति के घर वाले उसे लगातार फोन कर रहे थे।
Jyoti's family keeps trying to call her.



सब चिंतित होने लगे थे।
Everyone is worried for Jyoti.




लेकिन कोई जवाब नहीं।
But Jyoti doesn't answer the phone.



ज्योति अपने काम में मगन थी।
Jyoti is too busy at work.





गांव में एक और समस्या सामने आई जिसके लिए पंचायत बैठवाई गई।
A new problem arises. Pawan calls for a Panchayat meeting.

श्रीधर बोल रहा था
'हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब गांव छोड़ देने में ही भलाई है।'
Our crops have failed. There's no point in staying here anymore. It is best to just leave.

धैर्य रखो, श्रीधर। कोई तो समाधान होगा?
Have faith, Bhikhu. We will find a way.




शेखर, ज्योति मिली?
Have you found Jyoti yet?

नहीं, हम ढूँढ़ रहे हैं।
No, we're still looking.



कक्षा में लड़कियों की संख्या और कम हो गई थी।
Meanwhile at the school, girls' attendance decreases.



यह आपके लिए।
This is for you!

महिला डाकिया
Postwoman



मुझे कौन चिठी लिखेगा?
Huh? Who would be writing to me?





नमस्कार पवन, मैं ज्योति के साथ स्कूल में नाग आकर हूँ। मैं ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ने वाली पढ़ीन और उमीता का पिता हूँ। आपकी तरह मैं भी बेशर्ह हूँ। इसलिए आपकी तरह बताना मैंने जिम्मेदारी है कि ज्योति हमारे साथ कारखाने में सुरक्षित है। आपकी बेटी काफी होशियार है। उसके कुछ सपने हैं। वह मधुवनकी पालन पोषण करती है। वह इस समय शाही नहीं करेगा चाहती है। वह इस क्षेत्र में रोजगार करना चाहती है। रतना भी नहीं पढ़ रही बच्चों को भी शिक्षा भी बनाना चाहती है। आपकी उस पर गर्व होना चाहिए। उसकी नादानी है कि वह उसे माफ कर हीजाए। आपका मित्र आभिर

Dear Pawan,
I am Anina and Zarine's father, Amir. I, too, have daughters just like you. Which is why I feel responsible to let you know that Jyoti is with us, safe in Jharkhand. Your daughter is a smart and resourceful young woman who wants to pursue a career in beekeeping instead of marrying a boy. She wants to make a living from beekeeping as well as help others make a living. She has come with us on this trip only to fulfill this dream of hers. You should be proud of her! I hope you can forgive her and help her dreams come true.
Yours truly,
Amir



महिला डाकिया ने ज्योति के घर पर भी पत्र दिया।
The postwoman delivers a letter to Jyoti's house too.



पत्र छिपा लो।
पवन को मत दिखाना।
Quick, hide the letter. Don't show it to Pawan.




क्या सब ठीक है, बेवा?
Is everything okay, son?



माँ मुझे लगता है शायद मैं ज्योति को कभी समझ ही नहीं पाया...
Jyoti... I never really understood her until now...









ज्योति, अमीना और जर्नीन क्लास में वापिस आ गईं।
Jyoti, Amina and Zarine are back in class.

12वीं कक्षा की परीक्षा का दिन आ गया।
सभी लड़कियां उपस्थित थीं।
The 12th board exam day arrives... all the girls are present.



अरे वाह! तुम सब वापिस आ गईं।
परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ।
You three have returned!
Excellent! Now, get ready for your exam.



टीचर ने प्रश्न पत्र बाँटे...
The teacher distributes the question papers...



यह देख अमीना, ज्योति और जर्नीन एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगीं।
Jyoti, Amina and Zarine smile looking at the question.



तुमचाप अपना पर्चा लिखो।
Write your answers, girls!



कुछ दिनों बाद...
A few days later...



भला पंचायत है। आप सभी को
आना है। मेरी बेटी ज्योति भी
बोपिस आ गई है।
My daughter has
returned. I'm thankful..
She has asked me to tell
you all to please come
with your wives and
daughters tomorrow
right here.

आमिर ज्योति और उसके पिता
को साथ देखकर खुश हो गए।
Aamir is happy to see
Pawan and Jyoti together.



यह तो बकी
अच्छी बात है।
This is great.



अगले दिन गाँव के सभी लोग
पंचायत की बैठक में शामिल हुए।
Everyone is present at the
village panchayat the next day!



START APRESH
पुनः शुरुआत







वर्षों पहले हमारे शहर को 'श्रमगागर और शहर' के गाँव के नाम से जाना जाता था। यह प्रकृति-श्रेणियों का गाँव था। जहाँ आम, लीची, अमरुद के पेड़ थे। हमारे गाँव से बनी लीची का शहर सारे देश में जाता था। लड़कियों की शादी जबरदस्ती नहीं की जाती थी। उन्हें अधिक लीर पर सक्षम होने दिया जाता था। लेकिन आज हमने वह सब खो दिया है। अब तक आ गया है कि हम सब मिलकर नई शुरुआत करें। एक नई कंपनी बनाएं, जहाँ पुरुष महिलाएं कड़े से कंधा मिलाकर साथ काम करें। जहाँ कोई भेदभाव न हो। जिस परवान को हमने खो दिया है। हम उसे वापिस हासिल करेंगे।

History is witness to the fact that once upon a time, our village was known as The Land of Love and Honey. Back then, we loved nature. We had an abundance of mango, litchi and guava trees! We would sell our litchi honey to the entire country. We would not force our young girls to marry. We ensured they stood on their own two feet and became **financially independent**.

But we've lost these ideals today. Now the time has come to take back our lost glory. We will form a new **producer company** where women and men will be **equal partners**. We will be known as The Land of Love and Honey once again!





हर कोई खुश और उत्साहित था।
Everyone is happy and excited.



आपकी बेटी बहुत होनहार है।
Your daughter is very smart and talented.


आपने उसे रास्ता दिखाया,
मैं आपका आभारी रहूँगा।
I'm grateful that you showed her the way.




आज ज्योति जो कुछ भी है
सब आपकी वजह से है।
I cannot thank you enough for what you have taught my daughter.



उसे बस एक मौके की तलाश थी।
I didn't do much. All she needed was a **chance**.







शुद्धि Branding




लोगो बताना



Logo Design

लोगो एक लिखे हुए पाठ और तस्वीर का संयोजन है जो दो उद्देश्यों को पूरा करता है। यह जनता को आपके कंपनी का नाम बताता है और आपके व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतीक बन जाता है।

A logo is a combination of text and visual imagery that serves two purposes. It tells people the name of the company and it creates a visual symbol that represents your business.



bees inc.

Together bee can.




SINCE 2018



BUZZBEE

FARM FRESH HONEY

GOLDEN BROWN







ब्रांड / कंपनी का नाम
Brand/Company
Name

टैग लाईन
Tagline

शुद्ध की शीशी

Honey Jars


विभिन्न प्रकार के जार और उनके आकार
Different shapes and sizes



प्लास्टिक मुक्त
Plastic-free

पैकेजिंग

Packaging




हिस्से पर लोगो
Logo on box



लेबल, टैगा

व स्टीकर

Labels, Tags & Stickers



टैगा Tags



वेबसाइट व मोबाइल ऐप

Website & Mobile APP

आपकी कंपनी के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत है। जिस पर आपके उत्पादों व सेवाओं की जानकारी हो जिसका इस्तेमाल करना सबसे लिए आसान हो।
You also need to have a website of your company with all your products/services listed. Simple, clean and easy to understand for any type of user.

वेबसाइट

डैस्कटॉप-नैपटॉप उपयुक्त वेबसाइट

Website

Website optimised for desktops and laptops



वेबसाइट किसी भी मोबाइल पर आसानी से देखी जा सके।

The website needs to be responsive and should be compatible with mobiles as well.





फैलिस Calendar

June



SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				



1. जून

आज कुछ लोग मोहंगा ट्र. स्कूल से जा रहे हैं। मैं उनके द्वारा दी गई बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ। परकर बहुत मजा आया। क्या लगा कि मैं भी अपना बन सकती हूँ। मैं चाहते कि हम आज स्कूल के बाह्य मधुमक्खी पारम पर शीघ्र करें। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जाने वाली हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ। देखते हैं कि क्या मैं जाँचें परा चतनी हूँ। मैं दाढ़ से पानी की बोतल और कुछ सब के लिए रख लूँगा।

29 June

Someone is coming to school today from going to school. I've been reading tons of books that they give us. I like them a lot. Makes me feel like maybe I can be an entrepreneur too! Anyway, they want us to do research about starting a beekeeping business today after school. A few friends and I have decided to go together and I'm quite excited... wonder what we'll find? I better remember to pack a bottle of water and a snack.


2 जून

कल के शीघ्र से बहुत मजा आया। मैं जेबा करना और अपनी के साथ गई थी। हम बहुत सारे मधुमक्खी पारकों से मिले और जब मैं हम लड़िका से मिले तबसे हमने बहुत सारे पत्र पढ़े। उन्होंने हमें एले सम 2 जून 1 की कसती दी जो उन्होंने की तरह 2 मधुर थी। उन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छी कसती होवे हूँ वे समझा चुकाने हैं। पानी से मुझे बताया कि हमारे मुताबकपुर के क्षेत्र कवर होने जा रहे हैं। मैं कैसे यह समझा सुलझाऊँ?

29 June

Research yesterday was really exciting. I went with Zarina and Amira to do the research. A few other girls from school came too. We went to meet with various beekeepers and then finally, we met Lalita and asked her tons of questions. She was tall and sweet like the whole jar of honey she gave us when we said goodbye. She told us that the best kind of entrepreneurs solve problems. I asked my grandma and she told me that our fields in Muzaffarpur are suffering and withering.

How do I solve this problem?



3. जून

मैं आज बाहर जाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने समझा सोचनी है। मैं समझना की और हां जाइ करेगी. और बाहर स्कूल। सभी तरहकियाँ मेरे साथ जाने वाली हूँ। स्कूल में बहुत पकित हूँगी है। हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। अब हम 10 तरहकियों की कोई एक नही सकता। मैं अपनी टीम दिन कि छुड़ियाँ में कोन अपनी साथ ही रखेगी।

5 जून

आज हमारी ठीक नर्सरी केक जाकर शीघ्र करना है और हमसियों से समझना है कि क्यापर करने की योजना क्या हैगी है?

6 जून

मधुमक्खी पारलना मुझे मधुमक्खी पारक बना है। इससे अच्छा तो कुछ ही नहीं सकता। हमारे शीघ्र से हमने जगा कि मधुमक्खियों परामाण करती हैं जिससे और कलने चलते हैं। मुझे समझीपुर के कुछ किता केक में मधुमक्खी पारलन के कोर्स के बारे में परा चतनी है। मैं कल से जाकर इस पर शीघ्र करेगी। हम रख को साथ में जाना चाहिये। अगर साथ गऊ ले बड़ियाँ रहेगा।

7 जून

आज समझीपुर जाना है। मैं मुताबकपुर से समझीपुर तक क्या मैं जाऊँगी और वहाँ से केक रिमगा से पहुँच जाऊँगी। आज बहुत मर्ती है इसलिये पानी की बोतल बाह से रख लगी। सारे रस्ता-वेग भी रख लगी. आचार कर्क वर प्रमाण, और सारी क्यारियों के प्रमाण पर। अगर आज ही नामाकन कराना परा तो रखबिल काम आयेगा मेरे शीघ्र के समान पर क्यारियाँ भी साथ लेनी वाली हूँ। क्या मैं पर जाकर आठ की जापसी लोडने की टिकट खरीदनी है।

29 June

I'm heading out today. Whatever problem I need to solve needs me to first find it. So I'm going to look for it everywhere. All the girls have agreed to join me. Together, we can do anything. Our gang of 10 is unstoppable. Visiting today: market, farms, and school to do research. Carrying my phone to document everything over the next three days of the holidays.

29 June

Researching at the local organic nursery cafe today and talking to entrepreneurs to understand what a business plan is.

29 June

Beekeeping! I want to be a beekeeper. Of course, it makes perfect sense. Through our research, we've found that bees actually help make the land more fertile through pollination. I've found a course at the Krishi Vidya Kendra (KVK) in Samastipur where they teach beekeeping. I'm going to go research tomorrow. Maybe all of us can go together? That would be awesome.

29 June

Going to Samastipur today. Taking a bus from Muzaffarpur junction to Samastipur Junction and then a rickshaw to the institute. It's a hot day, better carry water. Carrying all my documents too: Aadhar, address proof and all passing certificates in case I can register today. The girls have even decided to join me on this research adventure. Need to book tickets at the bus station for a bus back for the same day.



8 जून

आजाने इधरने वाली रात्र के दिख नामाकन कराना है। किसमत भवली थी। आजका हिसाा हुमेन सारे दरतावेर रख लिखा। से बहुत खराब है। अब मुझे 15 दिन के लिए सामान बांधना है। सबसे खरिशा बन पाइ है कि कम उपदे भरी व्यवसाय के लिए सेरे बचाव सकते हैं। यह कोर्स से सि। बलक है।

8 June

On my trip to Samastipur yesterday, we registered ourselves for a session that starts next week, we got lucky. Good thing we took all the paperwork with us. I'm so excited. Have to pack a big bag for 15 days now, will be staying in Samastipur through the 15 day course. Best part? We can save our savings for the future business. The course is entirely free.

10 जून

आने से पहले मुझे खरूल जानकर मेरा बहवरी पास नहीं की है। भरी में बहुत योग्यचित है। आज चापस आज भर लालिा संग मधुमक्खीपालन पर डाक्यूमेंट्री देखी।

10 June

Before we leave, I need to go to school to ask about when the results are out. I'm going to be the first 12th pass in my family, my mum will be so proud. Will come back and watch a documentary on beekeeping with Latika today.

11 जून

लालिा मन गई कि में केर जाने से पहले उनके खर कान कर सकती है। आजले कुछ दिन लालिा के साथदीने के सेने में काम करेगी और मधु मक्खियों के बारे में सीखेगी। खेत सिकि एक किलोमीटर की दूरी पर है।

11 June

Latika has agreed to let me apprentice with her until I leave for KVK. Spending the next few days on a hilly field 1 km away with Latika, learning all about bees.

12 जून

आज लालिा के साथ सीखेगी कि लालिा कैसे करते हैं। आजका रनव में है क्योंकि मुझे मणित के बारे में खारा जानकारी नहीं है। खिना लालिा ने कहा है कि में पटली सीख जानगी। खेने बताया कि आज रानार में जात है तो आज हमेशा किरगी तरह आजुति कर सकते हैं।

12 June

Spending today learning how to log accounts with Latika. Bit nervous today since I don't know much about math. But Latika has assured me that I'll pick it up quickly. She says if there is a 'demand', you can always work up a 'supply'.

14 जून

कल बहुत बरा दिन है। हम कल से आजले पुरुह दिन केर में ही खेने जाते हैं तो यह सामान बाद से बांधना है।

14 June

Tomorrow is the big day. The gang and I will be staying at KVK over the next fifteen days so I better make sure to carry:



15 जून

आज केर के लिए निकलना है। सुबह सात बजे बस है। साइआठ पर बस आगा पहुच जायेंगे। में आने किम में जाना के लिए मधुमक्खी परन पर एक किलोम डरनटौड कर चुकी है। (शाय से इयरकोन रख लेना)

15 June

Leaving for KVK today! Bus at 7 a.m. I arrive at 8:30 a.m. at the bus junction. Have downloaded a beekeeping film on my phone for the travel. (remember to carry earphones). The beekeeping sessions starts tomorrow.

16 जून

आज पटली उठ गई, केर आने से पहले में शोष करेगी और आज पास का इलाका घूमंगी। में सुना है कि यहाँ पास में मुहा (मिनी) प्रशिष्टाण प्रयोगखाला है सबसे पहले वही देखने जाऊंगी। आज हमे बताया आजका कि कोर्स में क्या-क्या होगा।

16 June

Woke up early today to do research before class and to explore the area around KVK. I've heard rumours that there's a soil testing laboratory here too. Going to go hunt for it first thing in the morning. Today, it's orientation day with an introduction on what we'll be doing here.

17 जून

आज तो कोर्स का हुआ दिन है। कल, बहुत मजा आया। हमे बताया गया कि हम यहाँ क्या-क्या सीखेंगे। हमे आजले तीन दिन तक मधुमक्खी के खरों के बारे में जानकारी दी जायगी।

17 June

Day 2 of the course! Yesterday was exciting. We've been given an overview on what we'll be doing here. We'll learn all about bee boxes for the next three days.





18 June

सीखा दिन - क्या मुझे पता चला कि मधुमक्खी के डब्लो की लंबाई 19 1/8" चौड़ाई 16 1/4" और ऊंचाई 9 5/8" होती है। जबसा बताने के लिए पहुँचे, उस छोटे डिब्बे के फेड़ की टाइमिंगों का प्रयोग किया जा सकता है। मुझे देखा है कि क्या मैं यह बना सकती हूँ और यदि नहीं तो मैं उसे क्या रखिएर कोल करके पहुँचाऊँ कि क्या वह मेरी इससे मदद कर सकती है।

20 June

पंचना दिन - हम अपनी बकसों और मधुमक्खियों के बारे में सीख रहे हैं। मुझे मधुमक्खियों से डर नहीं लगता लेकिन स्कूब वार स्कूब मधुमक्खी ने कहा मारा था और बहुत बड़े हुआ था। मुझे मधुमक्खी से बचाने वाले सूट के बारे में पता लगाना चाहिये।

21 June

आज रविवार है - मैं किसानों और मधुमक्खी पालकों से बात करने सम्मेलित के गोंगे से जाऊंगी। आमरे-माई को बकसे का यूटो के लिए कोल करना है।

22 June

छठा दिन। हमें सिखाया जा रहा है कि मधुमक्खियों को कैसे संभालना होता है। ये मीडियर तो हैं लेकिन जोड़ा डर भी लगता है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं हमेशा ही मधुमक्खी के आस-पास रही हूँ। लिला के साथ जो सीखने को मिलता वह भी काम आ रहा है। लेकिन कुछ ये मारा है। अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो? मुझे साइस रखना चाहिये।

19 June

Day 3 of the course - Yesterday I found out that bee boxes are 19 7/8" in length, 16 1/4" wide and 9 5/8" in height. Pine, cypress and cedar are good options for the wood. I wonder if I can build that myself with a little help? My cousin is a carpenter - I'll call him this Sunday to see if he can help me build a bee box.

19 June

Day 5 - still on bee boxes, but also learning about bees. I've never been afraid of bees but honestly, I've been stung by a bee once and it was awful. Best to start researching bee suits to make sure that I'm ready with the right suit for beekeeping.

19 June

Sunday today - taking the day to visit fields around Samastipur to talk to farmers and beekeepers. Call cousin Amar to ask about the bee boxes.

19 June

Day 6 of the course - We're learning to handle bees now. It's exciting and scary. I mean, growing up around bees has given me an added advantage and Laila's training helped too. But this is the real deal, what if the bees sting me? Must be brave.



23 June

मधुमक्खियों को नोटियों से हमेशा खतरा बना रहता है। ये तो मुझे पता नहीं था। इससे बचने के लिए हमें स्कूब तकनीक सिखाई गई है। इससे बकसे के नीचे वाली सिट्टी में गाड़ू खोडकर उसे पानी से भरा है। से अगर गोलस बना रही हूँ और साथ ही साथ इसकी तस्वीर भी ले रही हूँ ताकि हमें यह रहे जब हम अपना व्यापार करें।



19 June

Bees often get attacked by ants. I had no idea. So to protect them I've learnt a brand new technique. It involves digging a hole into the soil and filling it with water right below the bee box. I've taken copious notes but I'm also documenting this process with photos so I can remember it well when we run our business.

25 June

नौवां दिन - आज मेरे स्कूब लोखिम जला कार्य किया। मधुमक्खियों को हाथों से उडाकर उनकी ग्राह बखलनी है। प्रशि. स्कूब ने बताया कि कैसे करना है और मैंने पूरी क्लास के सामने किया। बहुत अच्छा अनुभव था। मधुमक्खियों मेरे हाथों के आस-पास गिनगिना रही थी। मेरा दिल बहुत और-और से धड़क रहा था लेकिन मैं फिर भी किया।

19 June

Day 9 of the course - I did something dangerous today. Bee colonies have to be shifted by hand. The instructor showed us how to do it and I volunteered to try it. It felt - Fuzzy. The bees sortily buzzed around my hand. I'll be honest, my heart was beating loudly in my mouth - but I did it!



26 June

आज बहुत बारिश हुई। हमें कुछ मिलना नहीं। हम सब मिलकर स्थानीय मधुपालक उद्यमियों को अंतर्दाह्न स्वीकृत कर रहे हैं। ग्राममा के पास गोहारा स्कूल वाली एक नयास प्लविका है जिससे व्यापार करने की योजना के अंतर्गत है। हम इनका प्रयोग करार और करने ताकि हम स्थानीय मधुपालक उद्यमियों से जानकारी जुटा सकें।

21 June


कौश का अंश दिन-धीमी सिखाने का दिन। मधुपालक की शक्कर सिखाना बहुत आसानी से जाता है। थूँकिक वह हमारी टोली में है, मुझे अंतर्गत है वहीं मधु-मक्खियों को सिखाने का सिमा रखाएगी।

26 June

It rained heavily today, we have a day off. The gang and I are researching local beekeeper entrepreneurs online. Asma is carrying the activity book that going to School gave us with the questions for the business plan. We're going to use it once more to get the information we need by talking to local beekeeping entrepreneurs.

21 June

Day 10 of the course - Sugar feeding day. Malala is really good at feeding the sugar to the bees. Since she's part of our gang, I suspect she'll lead the charge on feeding bees.



29 June

ग्यारहवां दिन - थूँकिक अब कौश समारत होने वाला है तो हमें तकनीकी के बारे में सिखाया जाना। राहद का क्या करना है, कैसे राहद केचना है, आदि।

29 June

Day 11 of the course - We're in the final few days of the course so now we're learning all about the technical stuff. What to do with the honey and how to sell it to people.


28 June

रविवार - आज हमें स्थानीय मधुमन्त्रीपालक उद्यमियों से मिलना है। उनके बारे में हमने थोड़ा किया था। आज हम तीन स्लेट में जानेंगे। एक स्लेट जीवनी का है - कोशिका करने कि अपने राह-पहियों के लिए थोड़ी बहुत दे जाँ।

28 June

Sunday - Heading out to meet the local beekeeping entrepreneurs we researched about. Visiting three different farms today. One of them is itchi - hope I get to pick a few to bring back here for my classmates.





July

MON							TUE							WED							THUR							FRI							SAT						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															

1. जुलाई

रेसलिंग दिन - जाना हमने योग बताया। योग-विद्या में यही चतुर्थ चरण है कि हम इस केंद्र से क्या कर सकते हैं। जाना कक्षा के बाद हम दोनों मिलकर योग करते व्यायाम कि योजना पर काम करने लगे किर्कसमः च होने तक योजना पूरी कर पाए।

3. जुलाई

कोर्स का अंतिम दिन, बड़ेबाने दिन - हमने रस-दूधसे कीर्कस समाप्त करने के लिए साराहा योग महामुमकित्वों से शिवा त्नी। हमारे अंतिम लक्ष्य शक्ति पर था। योग हमने यह भी सीखा कि महामुमकित्वों पर हम के व्यायाम करना-क्या किता जा सकता है। लेकिन मुझे प्यारा है कि व्यायामकी योजना बनने के लिए योग भी वहीं सीखी होगी। कल हम व्यायाम टाकर जातार से शीघ्र करना शुरू करेंगे।

4. जुलाई

जाना लक्षितियों के साथ महामुमकित्वों समाप्त लौटता है। हमारी क्या दिन के समाप्त है- ताकि हम शान्त रहें-चर तक पहुंच जायें। जान की से जुड़े पहिचान के लिए जाना बनाऊंगी और उन्हें सामुदायिक के बारे में सब बताऊंगी।

1. July


Day 13 - We made wax today! My head is still buzzing with ideas from the course for what we can do with our business. Today, after class, all ten of us are meeting to work on our business plan so we can finish it by the time we finish the course

3. July

Last day of the course, day 15 - We all gave each other a pat on the back for completing the course and said goodbye to the bees. Our final lesson was in sales and what one can do with a beekeeping business. But I feel like there's more to learn and add to our business plan. So when we head back tomorrow, we'll start market research as soon as possible.

4. July

Heading back to Muzaffarpur today with all the girls. We've taken an afternoon bus so we'll be home by 4:30 pm. Once back in Muzaffarpur, I'll make dinner for the whole home today so I can tell them all about what we've been up to in Samastipur.



6. जुलाई

जाना शीघ्र - हमने 28 क्षेत्रों की सूची बनाई है। उन्हें अधिक क्षेत्रों में है। हम 10 लोग-चार, तीन और तीन के समूह में समूहों में दिन दिन एक और तीन क्षेत्रों पर काम करवा करेंगे।

8. जुलाई

हम जानकी व्यायाम कि योजना के साथ-कल तीन क्षेत्रों में गये थे। हमने एकमात्र हमारा क्ति क्षेत्रों में योग के व्यायाम के अंतर्गत योजना बनायी है। असाधारण कुछ योगीर ही देखी है। योजना में जातिश का भी व्यायाम रचना पढ़ना है।

9. जुलाई

जाना क्षेत्रों में जाने का अंतिम दिन है। जाना रात को हम 10 चरकिया-चार पर मिलेंगी और जातार जाने कि योजना बनाऊंगी।

10. जुलाई

हम शीघ्र करने के लिए सभी बाहर की-दुकानों और कंपनियों में गये। लेकिन हमें शान्त सीधे ग्राहक से प्रश्न-पहिले कि उन्हें क्या सुझाव-पहिले। जो सब कर रहे हैं वह कसे से कुछ फायदा नहीं होगा। ग्राहकों से पहले के लिए खानों की सूची बनायी है।

11. जुलाई

ग्राहकों का सर्वेक्षण करना है। बहुत सारे से-सब लोगी।

6. July

Market research - we've made a list and found 28 fields that have organic farming in some capacity or the other. The ten of us are dividing ourselves in groups of 4, 3 and 3 and visiting three farms every day for the next three days to do research.

8. July

We visited 3 farms yesterday with our business plan questions. Got tons of information on how to plan for seasonal variations. Ground realities vary, factors such as rain need to be accounted for in our plan.

9. July

Last farm visit day. Make a plan to visit the market for honey products with all ten girls over tea tonight.

10 July

Headed to all the honey shops and companies to do re-search. But wait, maybe we need to go directly to the customer to ask them what they want improved. No point in doing what everyone else is already doing. Make a survey for customers.

11. July

Customer survey research day. Carry extra pens

19. जुलाई

आमार शौध - हम उन बिकेलाओं से मिल रहे हैं जो अधिक राइड बकी कंपनियों को बेचते हैं ताकि उनका व्यवसाय समझ सकें।

13. जुलाई

आमार शौध - हम वन लोग एक बाजार में जा रहे हैं। बाकी के पांच लोग दूसरे से उनसे। हमें पता है कि इनका लाना में किना सर्फ होता है और लागत किना होता है।

14. जुलाई

आमार शौध - रत्ना को बहुत बड़िया विवर आया। हमने उनसे आग से पूछा कि हमारे राइड के माइक कीन हैं? तो उस रन मूवियों से खाना खूबे जा रहे हैं जो तरह-तरह के राइड का उपयोग करते हैं।

15. जुलाई

आमार शौध : आज हम कर-गांग में मधु-मक्खी के मोम वाली दुकान में जायेंगे। सुबह 8:45 कि बस है और उसके के बाद दुकान लक रिक्सी से जायेंगे। मोम गुल नैला पर सब देस लिखा है। उसमा से खाब जा रही है।

16. जुलाई

आमार शौध - हम 10 तरह-कितां छोटे-छोटे समूह में ग्राहकों से मिलेंगे।

17. जुलाई

आमार शौध - आमार हम खेतों के मालिक से बात करेंगे। व्यवसाय का पंजीकरण करने के बाद हमें निर्णय लेना होगा कि हम किन खेतों में मधुमक्खी पालन करेंगे।

12 July

Day 13 - We made wax today! My head is still buzzing with ideas from the course for what we can do with our business. Today, after class, all ten of us are meeting to work on our business plan so we can finish it by the time we finish the course

13. July

Day 13 - We made wax today! My head is still buzzing with ideas from the course for what we can do with our business. Today, after class, all ten of us are meeting to work on our business plan so we can finish it by the time we finish the course

14. July

Market research - Visiting a beeswax store in Darbhanga today. Taking a bus from the junction and 8:25 am, then a rickshaw from the bus stop to the store. I have the whole thing on google maps planned out. Asma is coming with me.

15 July

Market research - Ratna had a wonderful idea today. We asked ourselves, who is the end consumer for honey? So we're visiting housewives who actually consume the honey or use it in their food and drink to ask them questions for our research

16. July

Market research - The ten of us are split into groups to visit end consumers.

17. July

Market research - Talking to farmers today to make connections. Once we register our business, whom can we collaborate with to place our boxes in their fields?

20. जुलाई

समकार की सखिड़ी योजना के चलते कुछ किना केंद्र में हमें बक्खी पर 50% की वट्ट दी गईं। सरे बक्खी 8000 रूपये की लागत 1000 से मिल गल। हम उनसे पता किछ चीजों से इस बक्खी खरीदेंगे।
लब एक समय मर्ही हमारी बक्खी बनने में मदद करेंगे ताकि हम उसे बेचना शुरू कर दें। उनसे इस ठहरी मिलना है।

22. जुलाई

अमर मर्ही से मिलकर पता-चला की सुद बक्खी बनने से कम खर्च होगा और अधिक मात्रा में बम लागू हो और भी सक्ते हैं। व्यव-साय स्थापित करने के बाद अमर मर्ही के साथ काम करेंगे।

24. जुलाई

आमार समस्तीपुर से बस में इस मधुमक्खी के बक्खे जा रहे हैं। उसमा और मधुमक्खी लाने समस्तीपुर गए हैं। वे बक्खी के लिए आलमा से कितावा देंगे और चल को जाऊ बतने लक जा जायेंगे। हम सब डब्बे बापस लाने के लिए मधुमक्खी बस लाने जायें हैं। बक्खी की जोड़ी समस्य के लिए लखन के सेल के शेड में रखेंगे।

26. जुलाई

आमार अभी इस साइडधार उसमा के मो से मिलेंगे। उसमा की मो को व्यापार की जानकारी है। वे आमार हमें प्रकिया और दरवाजों के बारे में समझायांगी।

20. July

Meanwhile, Amar is willing to help us make the boxes so we can start selling them eventually. Setting up a meeting with him for this week.

22. July


Meeting with Amar, it will cost us less to make our own bee boxes and to sell them if we do this in larger numbers. We'll be collaborating with Amar once we set up the business.

24. July

The ten bee boxes are coming in on a bus today from Samastipur. Asma and Tarannum went to Samastipur to bring them back. They'll pay the bus an extra fare for the boxes and return today by 8 pm. We're all going to the Muzaffarpur bus junction to bring the boxes back. Storing them in Tarannum's farm's shed for the time being.

26. July

Meeting with Asma's mother with all ten partners. Asma's mother knows about business consulting. She's explaining to us the process and documents today for the same.



August



SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1. अगस्त

जगत क्षेत्र में बक्से रखने के संबंध में तीन नए किसानों से मिलना है। मधुमक्खियों के बक्से ऑनलाइन रखदिये हैं जो तीन बाढ़ धार जग्त जग्तों। हमने मधुमक्खियों के बक्से डब्बों का आर्डर दिया है।

4. अगस्त

हम कृषि विभाग केन्द्र से मधुमक्खियों के बक्से लिए। हर फ्रेम 150 रूपये का है। हमें अभी एक ही माहिला। अरुमा और तरुमा समरपुर के लिए निकलने और हम सब किसानों को मनाने का प्रयास जारी रखते कि वे भी बक्से खेत में रखें।

5. अगस्त

जगत जिन बहुत बरिया था। जगत मेरा जन्मदिन भी है। और एक किसान माना गई कि हम उनके क्षेत्र में बक्से रख दें। उनका नाम जसुधरा है और वह बहुत सारे लीची के क्षेत्रों की मालिक है। उसका नाम रहा है कि इस दुनिया ने मेरे जन्मदिन पर मुझे यह तोहफा दिया।

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT



1. Aug

Meetings lined up with three new farmers across the field today to talk boxes. Buying boxes online and it'll be shipped here in the next three days. We've ordered ten boxes of bees.

4. Aug

We're buying bees from UK today. Each frame for INR 350. We need just one. Asha and Tarunam are travelling to Samastipur while the rest of us keep persuading farmers to allow us to place boxes.

5. Aug

What a day, it's my birthday and a farmer has agreed to be the first one to keep our boxes. Her name is Vasundhara and she is the owner of multiple litchi farms. It's the universe's present for me!

6. अगस्त

जगत हमने पांच बक्से खेत में रख दिए हैं। मधुमक्खियों को डब्बों से हटाना पड़ेगा। हम इसी को पहिना से खुद खार लेना पड़ेगा। जगत खुद के खुद ऑनलाइन खार डर कर डेरी। एक हमने से जगत जग्तों।

7. अगस्त

हरभंगा में बहुत बरिया डोडा सा व्यापार मिला है। वे तरह-तरह के खुद बनाने हैं। जैसे हजमान खुद खारख्या देखे जगत बाबा खुद, जगति। हमने उसे हमारे लिए मिला के लिए बीना है। ऑनलाइन आर्डर को रद्द करने के लिए 500 रूपये देने पड़े लेकिन कोई बात नहीं हम इस डकान से खुद खार कर काफी से से बचा सकते हैं।

8. अगस्त

जगत हरभंगा उस महिला से मिलने जग्तों जो खुद बनानी है। हमने सोचा एक बार मिलकर कपड़े की गुणवत्ता देखे और और मोल-मात्र कर लें। मैं चाहूंगी कि हमें 10 मधुमक्खी बचाव खुद 1500 रूपये प्रति खुद के भाव से मिले।

10 अगस्त

हम 10 बक्से लीची के क्षेत्रों में भेज चुके हैं। अरुमा नाई हमें पांच बक्से खेत रहे हैं ताकि हम रखनी गुणवत्ता देखे सके। हर खुद दिन बाद हमें किसानों के लिए बाकी के पांच बक्से के सामान लेकर जग्तों के क्षेत्रों हम वह खुद से बना सकते हैं।

13. अगस्त

जगत में हरभंगा से खुद लेने जग्तों। हमने प्रति खुद का भाव 1500 रूपये रखा था। हम जिन महिलाओं से मिले उनका नाम जीवा था। वह बहुत अच्छी हैं। उन्हें इस्तेमाल किया गया सामान से खुद बनाना है। और वे बहुत ठिकान हैं। उनके साथ यह खुद बनाने पर एक बकशोर करनी चूकेंगी।

6 Aug

We're moving five boxes to the field today. The bees will be moved by hand. All ten of us are going together in borrowed bee suits from Laita. Placing orders for our own today online. They'll be here in a week.

7 Aug

Found the perfect small business next door in Darbhanga! They make various hazard, healthcare and hazmat suits. Have asked them to make ours as well. Cancelled the online order and paid a cancelling fee of INR 500 but that's okay, we'll be saving a lot on the actual suits plus building a relationship with a small business.

8 Aug


Visiting Darbhanga to meet with the lady who makes the suit to inspect the fabric and negotiate prices. I want us to agree on 12 bee suits for INR 1500 each. I'm willing to go up to INR 1750 each.

10 Aug

We've moved ten boxes to the litchi fields so far. Meanwhile, Aruna is shipping five boxes for us to test. He'll be coming in with materials for the rest five soon after to show us how to make them so we can build our own.

13 Aug

Going to collect the bee suits from Darbhanga. We agreed on INR 1500 for each suit. The lady we met - Deepa is amazing. She makes her suits from repurposed materials and they're super sturdy. Going to set up a workshop with her on bee suit making so we can learn from her.



15. अगस्त

स्वातंत्रता दिवस - अनाज बहुत बिक्रिया
Gif देखना व्हाट्सऐप पर और उसे देख-
कर मुझे विचार आया कि इसने द्वारा
बिणाम बहुत जल्द जल्द से किया जा सकता है।

15 Aug

Independence Day - saw a great Gif sent to me about it
on Whatsapp and it got me thinking - Isn't that a great
way to market a product?

18. अगस्त

साझेदारों के साथ मिलना है। हमारे ब्रांड
का क्या नाम होगा, क्या पहचान होगी,
कैसा दिखेगा? सब दिग्दर्शन करना शुरू
करना है।

18 Aug

Business meeting with partners. What's our brand
identity, name, look? Need to start on design.

19. अगस्त

हमने कुछ नामों का सोचा है। लेकिन
हम "बीस टू जार कंपनी" रखने का सोच
रहे हैं। हम कल निर्णय लेंगे।

19 Aug

We've come up with a few options for names. But we're
sticking on Bees to Jars Co. Everyone is sleeping on it
tonight and we'll pick tomorrow.

20. अगस्त

हमारी कंपनी का नाम होगा "बीस टू-
जार"। लोगों और ब्रांडिंग-संबंधित काम
के लिए नई के कॉन्टैक्ट होकर से मिलने
की योजना बनायी है।

20 Aug

Bees to Jars Co. it is setting up a meeting with Bhavin's
college friend who is a designer to make our logo and
other branding bits.

21. अगस्त

अनाज दिग्दर्शन से मिलेंगे। उन्हें देखते
से ही जानकर हमारा काम दिखाएंगे
और अपने बारे में सब बताएंगे ताकि
वह जल्द से दिग्दर्शन कर सके।

Meet with the designer today. We're going to a field to
talk so that I can show her how we work and who we are
before she designs our identity.

24. अगस्त

अनाज दिग्दर्शन मसूदा भेजेंगे। हम सब
उसे अपने फोन पर देखेंगे और बातों को
सुझाते रहेंगे पर दिग्दर्शन को अपने
विचार बताएंगे।

24 Aug

The designer is sending a mock today. We're all going to
view them on our phones and connect on a skype chat
with the designer to discuss feedback at 6 p.m.

26. अगस्त

"बीस टू जार" का अंतिम लोगो अनाज
दिग्दर्शन भेजेंगे।

26 Aug

Final design of the logo in from the designer for Bees to Jars Co.



28. अगस्त

दिग्दर्शन किसी को जानती हैं जो वेब-
साइट पर काम शुरू करेंगे। लेकिन पहले
वे हमारे अंतरेक्षक को जो जिन-प्राइवेट
हैं। हम उन्हें वेबसाइट बनाने के लिए
5000 रुपये देंगे।

28 Aug

The designer knows someone who does websites. We're
starting work on the website. But first they want to
come see our fields and take photos. We'll be paying them
INR 5000 for the whole website.

29. अगस्त

वेबसाइट के लिए कोडर और टेक्स्ट
अनाज कंपनी के अंतरे से आया।

29 Aug


Code and content writer coming to the itchi fields for
our website.

31. अगस्त

हम नयास पैकेजिंगा करते वाले विक्रेता
से मिलेंगे। वे हमें पांच रुपये प्रति जार
की कीमत पर देंगे।

31 Aug

We've met with a glass packaging vendor in Muzaffarpur
for our honey. They're selling it to us for INR 5 per unit.



September

SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

2. सितम्बर

हम चार हजार रूपये में कृषि विज्ञान केंद्र के शाहर निकालने का उपकरण लेकर आए।

5. सितम्बर

आज हम पहली बार शाहर निकालने वाले हैं। ललिता हमें सिखाते आखी और हम सब खुद पढ़कर आये। हमारे माँ-बाँप भी आये।

6. सितम्बर

ललिता कल भेरे लिए लीडफा टैकर आई यह व्यवस्था के उपर किताब है लिखकर नाम है "गुड ड्रीड"। भेरे यह आज ही पढ़ना शुरू किया है; बहुत मजा आ रहा है।

2. Sep

We've bought honey extracting equipment from KVK for INR 4000

5 Sep

We're extracting honey for the first time today! Lalita will be there to guide us and we'll all be suited up and ready to go. Our parents want to come too.

6. Sep

Lalita brought me a gift yesterday - it's a business book called Good to Great. I just began reading it, it's quite nice so far.

7 सितम्बर

आज शाहर निकालकर रसकी थैकिंग करनी है। हम 20 गार भर चुके हैं। आज बड़ी कंपियों को पांच नये नैर्तेने और बाकी के 25 रूपये में स्थानीय दुकानों को बेचेंगे।

8. सितम्बर

हमने किताब से एक बहुत बड़िया बात सीखी। व्यापार में अच्छे होने के लिए बहिर्मुखी होना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि कोई भी अच्छा व्यवसाय बन सकता है।

10. सितम्बर

हमारी सफलता देख आपने खेत में कैसे रखने के लिए और दो किसान मान गए हैं। एक झारखण्ड से है, एक दरभंगा से। दरभंगा के सुरजमुखी खेतों में इस हफ्ते में बनसे रखेंगे।

14. सितम्बर

आज दरभंगा के खेतों में खेती शुरू होगी। हम में से पांच वहाँ जायेंगे। उनसे मिलेंगे, उन्हें सुरक्षा के बारे में और मधुमक्खी पालन के कार्यों के बारे में बतायेंगे।

16. सितम्बर

हमारे पास कुल 20 बक्से हैं। उनमें उन चाले दो डीन में हमारे साथ दस बक्से और बनयागा। अपने अंश के बहई की बाहर निकालकर आने दो दिन तक... भेजना करनी है।

7. Sep

Sieving our honey today and packaging it. 20 jars have been filled with honey. We're sending out five as samples to big companies and selling the rest at a local store for INR 75.

8. Sep

Learned a new thing from the book. You don't have to be an extrovert to be good at business. That's amazing, that means anyway can be a successful business person!

12. Sep

Another two farmers have been convinced owing to our success with the first one. One is in Jharkhand. One is right here in Darbhanga. Will be placing boxes in the Darbhanga sunflower fields this week.

14. Sep

Placing boxes in the Darbhanga field today. 5 of us are headed there to set up and meet with farmers to assure them of their safety and the benefits to their farm.

16. Sep

Placing boxes in the Darbhanga field today. 5 of us are headed there to set up and meet with farmers to assure them of their safety and the benefits to their farm.

18 सितम्बर

आज झारखण्ड के रिपब्लिकन रेली है। हम झारखण्ड तक किसानों से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम तीन ट्रेनों के साथ जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम किसानों से मिल सकें। हमें किसानों से मिलना है। हमें किसानों से मिलना है। हमें किसानों से मिलना है।

18. Sep

Leaving for Jharkhand today. We're taking a train from the station here to Jharkhand to meet with the farmers there. Three of us along with Lalita, are headed to Jharkhand. Asma is travelling with Anwar and bringing the bee boxes in a tempo via road. Tempo is hired for INR 750 per day and Asma is driving.

20 सितम्बर

आज झारखण्ड के सरसों के खेतों में सबसे खूबसूरत दिख रहा है। वार से हम बहुत मजा आ रहा है। खेती का रस है कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।

20. Sep

Placed the boxes in Jharkhand mustard fields today. So excited to be placing it far from home, it's a sign that we're expanding.

22 सितम्बर

"गुड ड मोड" किताब बहुत बुरी है - बुरी पढ़ा पा रही हैं। लेकिन मैंने बहुत पढ़ा है। अचानक डाक्यूमेंट्री देखी - कैसे अच्छी व्याख्या की है।"

22 Sep

Trying - and failing - for now to read Good to Great at a fast pace. But I did watch a great documentary on YouTube on how to be a good businessperson.

23 सितम्बर

आज मुजफ्फरपुर वापस जाने की ट्रेन है।

23 Sep

Taking a train back to Muzaffarpur today.

24 सितम्बर

डीप ने हमें के तैर पर ड्राफ्ट के टैग्स दिए हैं। आज मधुमक्खियों को नोडन कराने का समय आया है।

28 सितम्बर

हम स्थानीय किसानों के साथ एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे जिसमें हम उन्हें मधुमक्खियों पालने के फायदों के बारे में बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही हमें भी आना है।

24. Sep


Got new beekeeping gloves from Deepa as a sample. Will try them out today as we feed the bees sugar.

28. Sep

We're doing a workshop with the local farmers on the benefits of bees to boost relationships with them. We'll be talking to them about hygiene, benefits and opportunities.

30. Sep

Website draft is ready. The partners and I are viewing it on our phones today and talking over a video chat with the coders to see if we need changes.



October

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

1. अक्टूबर

वेबसाइट सफलता की राहें हैं। लेकिन हम सबके अपना-अपना विचार हैं। तो हम यह अपने दोस्तों को और परिवार वालों को दिखाएंगे और उनके विचार जानेंगे। सबके लिए सबको की खुशी बनानी है।

2. अक्टूबर

सूची के अद्यतन आ चुके हैं। उन्हें मलाना और तस्मम के साथ देखना है। उनकी खुशी बनाकर डिजाइनर को अपना है-रिसमों-सारे बदलावों की विस्तार से जानकारी है।

5. अक्टूबर

आज सुबकरपुर के क्षेत्रों से डाइर निकालना है। हम सब 10. लड़कियां वही जायगी ताकि काम अच्छी ही जाय।

2. Oct

The website looked good but we all had very diverse opinions so we're doing a dipstick - which means we'll be running the website by our friends and circles to see how they react to it. Making a survey for everyone to answer.

3. Oct

Survey feedback is in. Tallying in with Malala and Tarannum. Will be compiling the feedback and sending it to our designer as a final document of changes that has screenshots and exact revisions.

4. Oct

Extracting honey from our Muzaffarpur fields today. All ten of us are headed there to make sure the process goes smoothly.

2. अक्टूबर

वेबसाइट में बदलाव किए जा चुके हैं। वह कल से चलने लगेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। शीघ्र बेचनी भी हो रही है। यह हमारा पहला कदम है जो हमको जनसंख्यिक पहचान देगा।

7. Oct

The revised website is ready, it looks great. It goes live tomorrow, so excited - and nervous. This is our first step towards becoming a global identity.

8. अक्टूबर

आज वेबसाइट चालू हो गई है।

8. Oct

Website goes live.

9. अक्टूबर

आज दरभंगा के लिए बस से निकल रहे हैं ताकि कल सुबह शहर निकलने से पहले से जा पाएं। आज शहर और मधुमक्खियों का निरीक्षण कर लेंगे।

9. Oct

Heading to Darbhanga fields early in the morning for honey extraction tomorrow. Taking a bus. Will inspect the honey and the bees today to see if all is good.

10. अक्टूबर

आज पूरे दिन फॉर्म साझेदार के साथ दरभंगा के क्षेत्रों में शहर निकालना है।

10. Oct

We're doing a workshop with the local farmers on the benefits of bees to boost relationships with them. We'll be talking to them about hygiene, benefits and opportunities.

11. अक्टूबर

शहर जानना है और जार में भरना है।

11. Oct

We're doing a workshop with the local farmers on the benefits of bees to boost relationships with them. We'll be talking to them about hygiene, benefits and opportunities.

15. अक्टूबर

हम दोनों में से आज एक कंपनी से मिलना है। मैं अपनी प्रक्रिया और लोगों का हमारे डाइर के प्रति प्रतिक्रियाओं के वीडियो को अपने साथ ही जा रही हूँ। अस्मा और तस्मम से साथ जा रही हूँ, बाकी के साथ रहण्ड जा रहे हैं वहां के किसानों से मिलने और समझें करेंगे।

15. अक्टूबर

Meeting with the first of the two companies, I'm taking along a video of our process and a few testimonials of happy customers. Asma and Tarannum coming with me, the rest are headed to the Jharhanda fields early to meet the farmers and clean up.

19. अक्टूबर

मीडिंग बहुत अच्छी रही। वी डों पक्के के लिए अनुबंध बना रहे हैं। मैंने ललित की यह देखने की कोशिश की। अनुबंध पर बातचीत करनी है। उसके लिए शहर की यात्रा बनानगी।

20. अक्टूबर

आज दूसरी कंपनी से मिलना है। पहली कंपनी ने शहर के जार के लिए मासिक, अनुबंध किया है। उससे ज्यादा शहर के लिए जलना अब मिलना लेकिन हर महीने कम निश्चित धनराशि मिलेगी। कंपनी के बर्तों के लिए यह बहुत अच्छा है।

21. अक्टूबर

आज अस्मा और तरसुम के साथ झारखण्ड के खेत जाऊंगी।

22. अक्टूबर

आज सबके साथ झारखण्ड के खेतों से शहर निकालना है। हम सब ने यह सोचा है कि जब भी शहर निकालेंगे तो एक जार किसी ऐसे इंसान को देंगे जो यह खरीदने से समर्थ नहीं है।

17. Oct

Meeting went really well! They're sending over a contract for us to look at. I've asked Lalita to look over it with us. Making honey tea for everyone to discuss the contract terms.

20. Oct

Meeting with the second company. The first company has offered a retainer contract with ongoing jars of honey. Excess honey can be billed at a price but we'll get a base price every month. That's great for ongoing company costs.

21. Oct

Heading to the Jharkhand fields today with Asma and Tarannum.

22. Oct

Extracting honey from Jharkhand fields today with everyone. We've all made a pact that we'll take a jar from each extraction hereon and give it to someone - anyone - who could use the honey but can't afford it.

25. अक्टूबर

आज दूसरी वाली कंपनी से इमेल आया जिसमें लिखा था कि शाम की अनुबंध बनाना। खुशी भी है और बेचनी भी। हम कैसे चुनेंगे?

26. अक्टूबर

अनुबंध अच्छा है लेकिन कमी भी विचार कर रहे हैं। वे छोटे प्रति जार के अनुसार जैसे डों लेकिन मासिक अनुबंध नहीं है। लेकिन वे पहली कंपनी से अधिक कीमत पर शहर खरीद रहे हैं।

29. अक्टूबर

कमीपै करे पड़े किलब के। क्या समाप्त होने वाली है। मैं पहली-पहली ही यह अच्छी समाप्त हो और टगा रहा है कि समाप्त हो न रहे।

25. Oct

Got an email saying the contract from the second company will be in later this evening. Excited and nervous to read it - which one will we go for?

26. Oct

The contract looks good but we're still deciding. They're offering a price per jar and no retainer but the prices are considerably higher than the first company

29. Oct

Finally made some headway on the book! Almost nearing the end. Was dying to finish it and now that I've come so far I don't want it to end at all...



November

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30			

3. नवम्बर

हम निर्णय लेने से पहले छिनो-कंपनीयों से एक बार और मिलेंगे। हमने सोचा कि यह कि छिनो के साथ काम करेंगे। सिस्की-वल्ह से हमें अपना उत्पादन डेलीवरी करना पड़ेगा इसलिए हम केबल से 10 बक्से और रखेंगे। अगर हम अपने दस डब्बे बना देंगे! हम सब से बसमें से इसकी ड्रकन बना रहे हैं।

7. नवम्बर

दस और डब्बे जाने के लिए तैयार हैं। असमा बाकी के दस केबल से ले जायेंगी।

8. नवम्बर

आज मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में बाह्य नि-कालना है। हम सब इसके लिए बस बायस आ रहे हैं। यह क्षेत्रकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ साइकिलर बसु यहाँ मिलेंगे। सबके मां-बाप को भी बुलाया है। और उसके बाद हम राह पर टर्नि करेंगे।

3. Nov

So we're having a final meeting with both companies back to back. We've finally decided... to sign with both of them. This means we'll have to double our boxes everywhere so we've ordered 10 more from KVK. Amar is making 10 more with us through this week. We're setting up shop on my verandah.

7. Nov

10 more boxes ready to go. Asma is bringing the other ten from KVK today.

8 Nov

Extracting honey from Muzaffarpur fields today. We're all coming back home for this. It's exciting to have all the partners in the same place. Inviting parents as well and we'll have a honey party after.



9. नवम्बर

आज मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में पांच डब्बे और रखेंगे।

10. नवम्बर

आज शहर हमना और ठीक करना है। अगर हमें केवल 50,000 रुपये दे-सुकी है।

13. नवम्बर

आज दरभंगा के क्षेत्रों से बाह्य नि-कालना है। हम पांच और बक्से बहा-रखेंगे जा रहे हैं। यहाँ के नि-कालना शहर की पहिली बनाई है।

15. नवम्बर

हमारे पास कुछ शहर के जोर को दुरु है। मैंने मुंबई में एक ड्रकन खोली है। जो हमारे जोर केबलना-बादी है। उन्हें से जो जोर नष्ट के रीर पर बैच रहे हैं। ड्रकन से भेज सकते हैं। असमा आज उसे ठीक कर देंगी। हम इस अपने स्काइप कॉल के द्वारा अपने असुबेदा पर भी बात कर देंगे।

18. नवम्बर

उन्हें हमारा शहर बहुत अच्छा लगा उन्हें और-गहिरा। उनकी ड्रकन-लगा मुंबई खरी थीर का नामान बनती है और व हमारा बसु, जोर 500-रुपये में बैच रहे हैं। हमें एक जोर के 950 मिलेंगे। बहुत बरिखा।

9. Nov

We're placing five more boxes in our Muzaffarpur fields today.

10. Nov

Sieving and packaging honey. Amar is driving two batches to the companies. Have gotten an advance of INR 50000 from each of them.

13. Nov

Extracting honey from our Darbhanga fields today. Driving down with five more boxes to be placed there. Have made organic honey jalebis as a snack for the road.

15. Nov

We have excess jars leftover! I've located a boutique store in Mumbai who would be willing to sell our jars. Packing and sending 2 jars as samples to them. Can send it through post. Asma is parceling it today. We're setting up a skype call for this week to discuss a contract.

18. Nov

They love our honey and they want more. The store - Lala Mumbai - serves gourmet products and they're selling our jars at a whopping INR 500 a jar! They're going to pay us 250 per jar.

18. नवम्बर

उन्हें हमारा बाइक बहुत अच्छा लगता है और नहीं। उनकी डकान-घाना खुब है- खने पीने का सामान बेचती है और वे हमारा एक कार 500-रुपये में बेच रहे हैं। हमें एक कार के 950 मिलेगी। बहुत अच्छा।

18. Nov

They loved our honey and they want more. The store - Lala Mumbai - serves gourmet products and they're selling our jars at a whopping INR 500 a jar! They're going to pay us 250 per jar.

22. Nov

Taking ten more boxes to the fields in Jharhand via road. Anwar and I are driving down. Asma might join us. The rest are taking a train, have to make bookings for them and book a tempo for ourselves.

26. नवम्बर

झारखण्ड के क्षेत्रों से शहर निकलना है।

26. Nov

Extracting honey from Muzaffarpur fields today. We're all coming back home for this. It's exciting to have all the partners in the same place. Inviting parents as well and we'll have a honey party after.

21. नवम्बर

कुछ गाइड बुक हैं। पिछले बैच से शहर में कुछ गात है। वह बैच नहीं-शक-ते, अब क्या करें? और तो और, एक मधुमक्खी ने किसान को डंक मार दिया है और वे-नाहते हैं कि-सेत से बकरों हटा दें। बहुत कुछ गात है रहा है।

27. Nov

Sieving and packaging honey. Anwar is driving two batches to the companies. Have gotten an advance of INR 50000 from each of them.

23. नवम्बर

उस और बकरों झारखण्ड लेकर आना है। अगर आई और में गाड़ी से तो छोड़ो। अचानक से साइ-चलती। बाकी सब दिन से छोड़ो। उन सबके लिए दिन कि टिकट खरीदनी है और हमारे लिए टिकट भी पर लेना है।

23. Nov

Asma is headed with the train lot, meanwhile we hit the road this morning.

28. नवम्बर

खबरना नहीं है। अचानक कैंची। अचानक सबके साइ मिलकर खरीदी।

28. Nov

Wor't panic. Meditating. Brainstorm meeting later today.

25. नवम्बर

नया बकरों झारखण्ड के क्षेत्रों में चला रहा।

25. Nov



Placed the new boxes in the Jharhand fields.

30. नवम्बर


हम इसका हल निकाल चुके हैं। जो शहर सयोग नहीं कर सकते उससे भोग बना लेंगे। इससे हमारा महिने का खर्च भी निकल जायगा और हमें नया खर्च-सो के बारे में पता-पता रहा है।

30. Nov

We've cracked it! We're selling the honey that can't be ingested to make beeswax instead... not only will we meet our monthly money goal but we'll also explore a new business opportunity.



December



SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

मोम की कंपनियाँ को शहर बेचने के लिए मिलना है।

2. दिसम्बर

Meeting beeswax companies to sell our honey.

2. Dec

3. दिसम्बर

मोम वाले से मिलना अच्छा रहा उम्मीद की कल शहर में ही है। हमें जल्दी और किसान जोड़ने होंगे ताकि हम दोनों से ज़रूरी बचने रख सकें।

Meeting went well. Will be sending them all the honey tomorrow. Meanwhile, we have to urgently find other farmers if they won't agree to continue keeping our boxes.

3. Dec

4. दिसम्बर

असमा और तरुम सुनकर उठ गए थे हमें इस हफ्ते शहर निकलने की तैयारी करने।

Asma is headed with the train to, meanwhile we hit the road this morning.

4. Dec

5. दिसम्बर

आज झारखण्ड में चारे किसानों से मिलेंगे।

Placed the new boxes in the Jharkhand fields.

5. Dec

6. दिसम्बर

असमा और तरुम आज चार से निकालेंगे। आभा है सब अच्छा होगा। आज रात की कल बरफ़ पड़ सकती है इसलिए नहीं सोना चाहते हैं कि मैं सुझे तिमिचारी यात्रा करना पड़ती है।

मोम कंपनी को शहर बेच दिया। आज झारखण्ड वाले किसानों से मिलना है कि हमें उनके क्षेत्रों से बचने रखने हैं। इससे हमें बेमाने हैं या नहीं। पूरे हफ्ते और किसानों से मिलना है।

8. दिसम्बर

Extracting honey from Muzaffarpur fields today. We're all coming back home for this. It's exciting to have all the partners in the same place. Inviting parents as well and we'll have a honey party after.

8. Dec

Sold the honey to the beeswax company! Meeting with our Jharkhand farmers to convince them to continue keeping the boxes in their farms. Let's see if they agree... Have meetings lined up through the week with other farmers in case it doesn't work out.

10. दिसम्बर

अमर और मल्ला खैरी से शहर निकलने दरभंगा के लिए निकलेंगे।

Amor and Malda are leaving for Darbhanga to extract honey in Darbhanga fields.

10. Dec

14. दिसम्बर

किसान हमारे बचने रखने के लिए मान गए हैं। एक और अच्छी खबर है। झारखण्ड के एक किसान हमारे बचने रखने के लिए मान गए हैं। उनके टीवी के क्षेत्र हैं। ज्यादा बचने का अच्छा खबर।

The farmers have agreed to keep our boxes! But another amazing development followed. Because we persuaded other farmers, another field in Jharkhand is happy to keep our boxes so it's an opportunity to expand.

14. Dec

16. दिसम्बर

झारखण्ड के क्षेत्रों में बचने रख दिया है। इस बचने पुराने क्षेत्र में, हम नया क्षेत्र में। सुझा लगाता है हमें झारखण्ड में बचने की देखरेख करने के लिए किसी की नी. कमी पर रखना होगा। चार पहुँचते ही इसपर बात करेंगी।

Placed boxes in the new Jharkhand field. Ten in the one, ten in the new. I think we need to hire someone in Jharkhand to look after the boxes. Will have a meeting about it as soon as we head home.

16. Dec

16. दिसम्बर

झारखण्ड के क्षेत्रों में बकरी रक्ष दिवस है। इस बकरी पुराने क्षेत्र में, इस नया क्षेत्र में। छोटी लगता है इसे झारखण्ड में बकरी की देखरेख करो के दिवस किसी की भी-कसी पर रखना होगा। घर पहुँचते ही इसपर बात करेगी।

18. दिसम्बर

दिस डेपूरी से आरु शै उसी से वापस जा रहे हैं। अमर और में रूक - रूक कर-के चलारंगी।

21. दिसम्बर

आज-समय निकालकर घर जा रही है और नया साल की योजना बनानी है। लेकिन उसे से पहले में और शहर मुंबई योजना-चाहती है। क्यों कि लोहार का समय है। लोहार के अनुसार-नई पैकेजिंग के लिए रूक स्थानीय कलाकर से-बात की है।

16. Dec

Placed boxes in the new Jharkhand field. Ten in the old one, ten in the new. I think we need to hire someone in Jharkhand to look after the boxes. Will have a meeting about it as soon as we head home.

18. Dec

Heading back to Jharkhand via the same tempo we drove up in. Amar and I are taking turns driving.

21. Dec

Taking time off to visit home and to work on a plan for new year. But before I leave, I want to ship more honey to Mumbai for the festive period. Speak to a local artisan to give the jar a festive look for Christmas and New Year's.

25. दिसम्बर

आज क्रिसमस है। लाला मुंबई से प्रीति ने मुझे व्हाट्सपप पर आर की तस्वीरें भेजी हैं। बहुत मस्त हैं। सोशल मीडिया पर सा-झा करना बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमें इसपर ध्यान देना-चाहिए-सोशलमीडिया योजना।

29. दिसम्बर

सबके लिए राहू का कैक बना रही हैं इसी सारे सिरोहाओं की सितारंगनी जब वे घर आरंगी।

25. Dec


Christmas! The lady from Lala Mumbai - Preeti - has sent me photos on Whatsapp of the jars, they look amazing! This would be a great social media share. That's exactly what we need next - a social media plan.

29. Dec

Making honey cakes for everyone, will distribute it to all the relatives when they come home.



January



SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

1. जनवरी

नव वर्ष! आज हम अपनी योजना की योजना में फेर बदल करेंगे और उसमें सारे नए खबसरो क बार में लिखेंगे जो नव वर्ष में आसों। लेकिन आज में सारे करेंगी, आराम से बैठकर सुनी देखेंगी।

4. जनवरी

आज मुगफरपुर चौक रही हूँ। शाम को सारे साझेदारों से मिलेंगी और काम को अच्छे से शुरू करेंगी।

5. जनवरी

साझेदारों के साथ बैठक बहुत अच्छी गई। हमारे पास बहुत सारे नए विचार हैं... सोम के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। शहरो कि दुकानों को सोमवारी बनेगी। कोस्मेटिक कंपनियों को ऐंभिक शहड बेचने के अवसर भी खोजेंगी।

7. जनवरी

आज दरभंगा के खेतों से शहड नि-कालना है। सारे दस साझेदार साथ जा रहे हैं वही कि हम इस वर्ष पहली बार कर रहे हैं।

1. JAN

New Year! We're going to revise our business plan to envelope all the sweet honey opportunities that this new year will bring. But for now, I'm going to enjoy today, sit back and watch a fun movie.

4. JAN

Heading back to Muzaffarpur. Meeting all the partners this evening to get a kick start on work.

5. JAN

Meeting went really well - we have so many new ideas... the opportunities with wax are endless. Going to collaborate with stores in urban cities for beeswax candles. Also looking at selling organic honey to beauty companies for lotion.

7. JAN

Extracting honey from Darbhanga fields today - all ten partners going together since it's the first extraction of the year.

8. जनवरी

शहड छान रहे हैं। १० बार मुंबई भेजेंगे और बाकी के बतौर नई बड़ी कंपनियों से खेतों।

10. जनवरी

चार कंपनियों ने एखाब दिखा है। यह तो शानदार खबर है, इसका मतलब हम वी कंपनी नुन सकते हैं जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। हम कंपनी के जब और बेहिकता देखकर निर्णय लेंगे, उन कंपनियों के साथ नही करेंगे जो जानवरो पर प्रयोग करती है।

12. जनवरी

आज शहड निकालने अमर के साथ झारखण्ड जाना है। वहा किसी को शहड निकालने, जानने और संकलिंग के लिए काम पर रखना बहुत जरूरी है।

13. जनवरी

आई के डिजाइनर के साथ विज्ञापन बनाना है ताकि उसके प्लानर आप सेके और व्हाट्सपप पर भी सबको भेज सके।

8. JAN

Sieving the honey - sending 20 jars to Mumbai and the rest as samples to beauty companies.

10. JAN

Four companies reached out - that's amazing, this means that we'll be able to choose which contract works best for us. Will decide based on prices and ethicality of the company - no way we're going to work with companies who test on animals.

12. JAN

Headed to Jharkhand with Amar for extraction. Really need to hire someone there to manage extraction, sieving and packaging.

13. JAN

Designing ad with Bhagnya's designer friend to put out flyers and to distribute on Whatsapp.



उत्सव है: मधुमक्खी पालक से बहुत मजेदार काम होगा। इसमें आप बीस टा एर कंपनी का झारखण्ड का काम संभालेंगे।
वेतन: १००० रुपये
जमी से काम शुरू कर सकते हैं।
अन्य जानकारी के लिए कॉल करें: +91 98२१२६५३२४ पर।

Looking for: beekeeper or beekeeper-in-training It's a fun, exciting adventure where you'll be taking ownership of Bees to Jars Co.'s Jharkhand wing.
Salary: INR 2000
Starting immediately.
If interested, call: +91 9872653738
Bee positive :)



15. जनवरी

झारखण्ड के पहले वाले खेत से शहद निकालना है।

15. JAN

Extracting honey from the first farm in Jharkhand.

16. जनवरी

शहद छानना है और पैक करना है। कंपनियों को बैच भेजने हैं, 10 आर स्थानीय दुकानों को भेजना है।

16. JAN

Sieving and packaging all honey. Sending batches to companies, 10 jars to sell locally.

20. जनवरी

झारखण्ड में दूसरी वाली जगह से शहद निकालना है। उसी दिन छानना है और पैकिंग करनी होगी। आरा शहद डेप्टी से घर ले जना है, गणतंत्र दिवस पर खूब बिक जाएगा।

20. JAN

Extracting honey from the second location in Jharkhand. Sieving and packaging the same day. Taking all the honey home in the tempo to sell in the upcoming Republic Day Bazaar.

22. जनवरी

नौकरी के लिए बहुत सारे आवेदन प्राप्त। कल जने से पहले सबके इंटरव्यू लेना है।

22. JAN

Got tons of messages from potential candidates. Lining up interviews for tomorrow before I leave.

23. जनवरी

पूरे दिन इंटरव्यू चले। दो आवेदक बहुत अच्छे लगे, उन्हें खेत पर बुलाया है उनका काम देखने के लिए।

23. JAN

Interviews all day. Liked two candidates a lot, calling them back on the field to see how they are with practical experience.

24. जनवरी

जमीनें भेरी मुझफरपुर जायस जने कि जोजना है लेकिन नया कर्मचारी को तैयार करने लख जायस आरंगी। अभी दो आवेदकों में से एक को चुने का निर्णय लेना बाचा है। दोनों बहुत अच्छे हैं।

24. JAN

Heading back to Muzaffarpur for extraction day but making a plan to come back to set up the new employee. Still have to decide whom to hire from the two. They were both great!

25. जनवरी

मुझफरपुर में शहद निकालना और छानना है। कल के फली बाजार में लाजा शहद भेजना है।

25. JAN

Muzaffarpur extraction and sieving today. Freshly packaged honey to also be sent to the flea bazaar tomorrow.

26. जनवरी

गणतंत्र दिवस पर फली बाजार है-अस्मा और मैं स्टाल संभालेंगे।

26. JAN


Republic Day flea bazaar - Asma is manning the stall with me.

28. जनवरी

संगीता को कॉल करके बातना है कि उसकी नौकरी पक्की। उसे इसलिये चुना क्योंकि वह अधिक शक्ति दिखा रही थी। हम चाहते हैं कि यहाँ सब ज़्यादा से काम करें। आजले हमने जायस जाकर उसे काम समझा डगी। आज जैन की टिकट खरीदनी है।

28. JAN

Calling Sangeeta to confirm that she's got the job! It's because she followed up with me and the other candidates didn't. Following up is a skill we value at Seas to Jar Co. Will head back to set her up next week. Booking train tickets today.



Febbruary

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30	31		

1. फरवरी

आज जिसाब किताब पर लेखक हैं-सारे साझेदारों से मिलकर लाभ और विकास पर चर्चा करती हैं। हमने विना विना किताब या खना काम चुके हैं और अब विस्तार करने के लिए लाभ काम रहे हैं।

3. फरवरी

आज मैं किताब पढ़ना है-मैजिक ऑफ थिंकिंग बिना ग्रेड इ ग्रेड पाठक बहुत मजा आया। देखते हैं इससे क्या सीखेंगे की मिलता है।

5. फरवरी

संगीत को मधुमक्खी पाठक का प्रशिः साण देने डारखण्ड जा रही हैं। पूरा प्रशिः साण हैगी। जिसाब किताब और तकनीकी जानकारी देने के लिए मैंने मलाला और अस्मा को भी आमंत्रित किया है। अस्मा संगीत का मैनुअल करेगी। हमारा परिवार बढ़ रहा है।

7 फरवरी

हमें बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन में शेयर कर के पूछा है कि क्या हम उन्हें सीधे बेच सकते हैं? हम इस बारे में सोचेंगे।

1. Feb

Accounts meeting - meet with all the partners to discuss our profits and growth. We've recovered all our initial investment and are now making profits to expand.

3 Feb

Started reading a new book today - Magic of Thinking Big. Loved Good to Great, let's see where this one takes me.

5. Feb

Headed to Sharkhand to set up Sangeeta as the resident beekeeper. Going to conduct an extensive training workshop. Have invited Malala and Asma to tell her all about the technicalities as well as about managing accounts. She'll be reporting to Asma and getting in touch with us as and when required. Our family is growing!

7. Feb

We've gotten several requests online from people asking if we can sell directly to them. Looking into this prospect.

9 फरवरी

कोशल मीडिया पर काम करना है। हम कैसे कोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं? आज मैं अपने फोन पर कैप्चर और इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने को चलाना सीखेंगी।

11 फरवरी

आज राहुद निकालने डरभंगा जा रहे हैं। उसके बाद छानकर बेंकेलिंग करती हैं उसी शाम मुजफ्फरपुर के लिए जा-खिरी बस पकड़ती हैं।

14 फरवरी

बीस द् जानई के लिए कोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना दी है। उन्हें हरि-हरि प्रयोग करना सीखेंगे। जो और सीखेंगे की परख है। मैंने कोशल पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखा है और हम देखेंगे की वह क्या चाहिये ताकि हम यह कोशल भी सीख जायें।

16 फरवरी

आज मुजफ्फरपुर में पूरे दिन राहुद निकालना है-सारे साझेदारों को वहां आना है ताकि जिसाब किताब पर बात की जा सके।

9 Feb

Social media time. How can we create a social media presence? Spending today installing and exploring Instagram and facebook on my phone.

11 Feb

Headed to Darbhanga to extract honey. Storing and packaging on the same day, taking the last bus home to Muzaffarpur.

14 Feb

Profiles made for Bees to Jars Co. on social media. Starting to use them slowly. Need more guidance. Have found a digital marketing Course in Coursera and all ten of us will be going through it so that we can all learn the skill.

16 Feb

Honey extraction day in Muzaffarpur - all partners headed there so we can have a meeting after about accounts.

19 फरवरी

आज पैकेजिंग करके उन सभी कंपनियों को शहर भेज देने लिके साथ अगुवा हुआ है।

19 फरवरी

डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आज शरू होगा।

20 फरवरी

एह चार हफ्ते का कोर्स है। इस हफ्ते शरी घुल बरि सिखाई जायगी। हम सभ डी. ओ के बारे में सीख रहे हैं - सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका अर्थ है कि कौन से शब्दों का प्रयोग करी पर हम सोशल मीडिया में ज्यादा लिखेंगे।

17 Feb

Packaging and sending all collected honey to various contractual companies.

19 Feb

Digital marketing course starts today!

20 Feb

It's a four week course. This week is all about the groundwork. We're learning about something called SEO - Search engine optimisation. Basically, what words are likelier to get you noticed on social media as a brand.

22 फरवरी

इस कोर्स के चलते मैं सोच रही हूँ कि हमारे के मन में हमारी कंपनी की कैसी रक्सीर होनी चाहिए। हमें अपने व्यापार में सोशल मीडिया का एक नया आग बनाना पड़ेगा। खुद से पूछना होगा: हम अपने दर्शकों से कैसे बात करेंगे? और उससे उसी तरह है कि हमारे दर्शक कैम हैं?

24 फरवरी

आज डारखण्ड से शहर आ रहा है। हमर लेकर आ रहा है। हम इसे आने बाह जाने पर में एक करके कंपनिया और दुकानों में भेज देंगे। 25 पर सुबई भेजेंगे है। मैं इसे खुद ही ले जाने वाली हूँ। अब समय आ गया है बड़े शहरों में संबंदा बनाने का।

28 फरवरी

आज कोर्स का दूसरा हफ्ता शुरू होगा। हम सीख रहे हैं कि लोगों के लिख कैसे लिखना चाहिए। वे शब्द प्रयोग करने होते हैं जो आसान मगर प्रभावशाली होते हैं। इसे शब्द एह भी सुनिश्चित करने हैं कि हमारी बात अच्छे से समझ आता।

22 Feb


This course is really making me think about how others must perceive us. We need to add a whole section to our business plan to cover social media. Need to ask ourselves: how are we talking to our audience online? In fact, who's our audience online?

24 Feb

Honey coming in from Sherkhand today. Ambar is driving it down. We'll be packaging it in our branded jars and sending it across to companies and stores. 35 jars to go the Mumbai. I'll be taking it myself. Time to make social connections in the big city

28 Feb

Week two of the course starts today! We're learning about how to write for the people. Using words that are easy but leave an impact while making sure we get the message across.



March

SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31					

2. मार्च

अच्छी बात यह है। कि कोर्स प्रस्तावना है। मुझे मुंबई के लिए टिकट खरीदनी है।

4. मार्च

आज मुंबई जाने के लिए टिकट खरीदनी है। बहुत खर्चीली थी कि स्कूल तक की सिर्फ 6500 में पड़ी। प्रभाते हमने निकलती, बेवैगी भी है और खसाह भी। कुछ भी ही सकता है, कुछ बहुत अच्छा भी है सकता है।

6. मार्च

प्रीती से बात की है और स्पाइरबीकनी के द्वारा अतिथि गृह जाने पर लिया है। मैं जिस इलाके में रहूंगी उसका नाम अभी है, तुकान बाबा में है। पूरे हमने बहुत सारे लोगों से मिलना है।

9. मार्च

कोर्स का तीसरा इकाया आज शुरू होगा। हमारा स्कूल साइबर अच्छी से नहीं पढ़ पा रहा है कि कल सब साइब मिलकर पढ़ेंगे।

Thankfully the course is online, need to book my tickets to Mumbai soon.

2. mar

4. mar

Booking my tickets today for Mumbai. Got it at INR 6500 each way on offer. Flying via Spice Jet. Leaving next week - so nervous, but so excited. Anything could happen - which means that all the wonderful things could happen too!

6. mar

Have contacted Preeti and booked a guest house in Mumbai through AirBnB. Will be staying in a place called Andheri, the store is in Bandra. Have set up meetings through the week that I'm there for.

7. mar

Week three begins today. One of the partners is falling behind so we're setting up a group study session for tomorrow.

8. मार्च

आज सारे साइबर साइब मिलकर पढ़ेंगे।

9. मार्च

आज धरभंगा में राहुद निकलना है। हमारी स्फुटम से योजना बनी, हम पिछली रात खेत में ही रहे और साइब में पढ़ाई की। बहुत मजा आया।

10. मार्च

आज पूरा दिन पैकिंग करनी है और राहुद खानना है।

12. मार्च

मुंबई के लिए सामान बांधना है। कल राहुद 6:10 का विमान है।

13. मार्च

आज मुंबई के लिए निकलूंगी- पहली बार जेन में बैठूंगी। पास से बादल देखने को मिलेंगे।

14. मार्च

आज बहुत सारी जगहें देखीं। यहाँ मुझे जानार साइब करना था इसलिये बहुत सारी दुकानों पर जाकर राहुद के भाव और गुणवत्ता देखी। सबसे स्कूल-स्कूल जाकर खरीदें चूनी और अर्पण साइबरों की डिब्बों के लिए ले जाऊंगी।

8 mar

Group study session today with all the partners.

9. mar

Darbhanga extraction day. We camped on the field last night as an impromptu plan after studying. It was awesome!

10. mar

Packing and saving honey today.

12. mar

Have to pack bags for Mumbai. Leaving tomorrow on a 6:10 am. flight.

13. mar

Leaving for Mumbai today - first flight ever! Going to see all the clouds today.

14. mar

Seeing all kinds of sights today. Also want to do market research here so visiting various honey stores to note prices and quality. Will buy a jar from each to check for myself and take them back to our farms to show my partners.



15. मार्च

दीर्घाह्वरा - शे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का अंतिम सेशन है और किन्ना जल्दा संयोग है. हमारी केसस्टडी और ईस्रोग्राम प्रीकाइज पर 100 लाइक्स आए हैं।

17. मार्च

आज प्रीति के साथ बैठक है।

18. मार्च

मुजफ्फरपुर में शहर निकलना है, मुझे छोड़कर बाकी सारे साथीदार वहां गए हैं।

19. मार्च

आज रूक बहुत बड़े साथ पत्राचार कंपनी से बैठक है कि हमारा शहर वह बेहतरीन गुणवत्ता वाले समान के रूप में बनें।

20. मार्च

आज कुछ शहर की दुकानों के साथ बैठक है जो हमारा प्रचार करना चाहते हैं।

15. mar

Week four - final week of the digital marketing course and what great timing - our profiles hit a 100 likes on Facebook as well as instagram.

17. mar

Meeting with Preeti today.

18. mar

Muzaffarpur extraction day, all the partners except for me headed there.

19. mar

Meeting with a luxury foods brand to pitch our honey as a premium ingredient.

20. mar

Meeting with various honey stores today who want to feature us.

22. मार्च

आज वापस जा गई. मुंबई में ही हमारा बहुत अच्छी निकल गया। लेकिन मुंबई शहर बहुत अच्छा जगह। अपने साथियों के साथ उन्हें आइडेंटि-।

26. मार्च

आज झारखण्ड में शहर निकलना जा. उगा - संगीता को कॉल करने कुछ ट्रेनि कि सब कैसा चल रहा है।

27. मार्च

जगता है संगीता जिम्मेदारी से काम कर रही है। अच्छा जगह अगर वहां और लोगों को नौकरी पर रखकर जगह में निवार कर दें।

29. मार्च

जगता है संगीता जिम्मेदारी से काम कर रही है। अच्छा जगह अगर वहां और लोगों को नौकरी पर रखकर जगह में निवार कर दें।

30. मार्च

हम सबको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा होने का समाचार मिल चुका है। गतिशील को पहले समस्या है रही थी यह पढ़ने में लेकिन फिर जसने यह इतने अच्छे से किया कि वही हमारे सोशल मीडिया का नेटवर्कबनेगी। आज रत को सबके साथ शहर की-चाय की पार्टी है।

31 मार्च

बिनीया वर्ष समाप्त हुआ. डिजिटल निराल खत्म करना है। संगीता को कॉल करके पता करना है कि झारखण्ड में सब कैसा चल रहा है।

22. mar

Headed back home - the week in Mumbai went by way too quickly. But I really liked this place. Will plan a trip back with partners here.

15. mar

Darhanga extraction day. We camped on the field last night as an impromptu plan after studying. It was awesome!

26. mar

Jharkhand extraction - calling Sangeeta to make sure all is okay.

27. mar

Seems like Sangeeta is taking responsibility effectively. It might make sense to build her a team at a later stage to facilitate expansion.

30. mar

We've all gotten our certifications for the digital marketing program online! Tarini, who was falling behind, did so well ultimately that she's now going

31. mar

End of the fiscal year - need to close accounts with the team. Calling Sangeeta to make sure all is well in the Jharkhand side of things as well.



SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

11 अप्रैल

11th दिन शहर की जानकर उसकी धीके-धीके गति की। हमें इस शहर में जगहियों की मात्रा काकी बढ़ी हुई लगी। इस पर शहर के क्षेत्र के लिए हम बिना धने हुए शहर का रूक डबका टीकर कृषि बिज्ञान केर खाना हुआ। हमने इस शहर का रूक दिखवा लहिनार की भी भेजा।

12 अप्रैल

packaging the same day. We've noticed a rise in the impurities in the honey. Will travel to YJK soon with a jar of unstewed honey to ask for advice. Will send one to Lalita too

17 अप्रैल

Headed to the Muzaffarpur farms today for inspection. Spending time with the farmers today to talk to them about growth. I want to film what they say and update it on our website as a testimonial to encourage more farmers to collaborate with us.

20 अप्रैल

Muzaffarpur extraction day today - the honey was of high quality. Sending samples from this batch to test as well. Sending the rest to supply for our Mumbai clients.

25 अप्रैल

Extracted honey from the Sharhmad fields today. Skype call with Sangeeta to check on quality. Getting several jars sent to us for testing. The rest going straight to the beauty companies. 20 jars from the batch to Lala Mumbai.

29 अप्रैल

Leaving for Mumbai today - first flight ever! Going to see all the clouds today.

1 अप्रैल

Start of the new financial year. We need to renew a few contracts. Start processes on that.

3 अप्रैल

Meetings today to renew contracts. Need a legal person to come with us to make sure all goes well. We've had a partner meeting and decided to extend each contract for a year since it allows us the opportunity to grow and change should we need to.

9 अप्रैल

Headed to Darbhanga a day earlier than extraction to make sure all goes well and to visit nearby farms to explore expansion in the area.

10 अप्रैल

Extracting honey from our Darbhanga field today.

1 अप्रैल

नया वित्तीय वर्ष की शुरुआत। हमें कुछ अनुबंध फिर से जारी करने हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू करनी है।

4 अप्रैल

कॉन्ट्रैक्ट फिर से जारी करने के लिए बैठक। बैठक में सबकुछ ठीक है। इसलिये रूक का नूनी खलाहकार की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ने के लिए हम साझेदारों की आज बैठक है, यह बैठक आगे बढ़ने और हमारे आवाश्यक वकलातों के लिए जरूरी है।

9 अप्रैल

शहर निकलने की प्रक्रिया के रूक दिन पहले ही मैं दरभंगा खाना हुई ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके। इसके बाद मैं मधुमक्खी पालन के काम की बढ़ने के क्षेत्र से भास-पास के क्षेत्रों का मुआयना भी किया।

10 अप्रैल

आज दरभंगा के क्षेत्रों में नये मधुमक्खियों के बसा से शहर निकाला।

11 अप्रैल

आज क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मुजफ्फरपुर खाना हुई। वहाँ जानकर किसानों से जब तक हुई माहि के बारे में बातचीत की। मैं उनके द्वारा कही गई बातों और सुझावों को फिन्माकर अपने देवसहर पर प्रशासकों के रूप में डालना चाहती हूँ तािससे अन्य किसानों को प्रेरणा मिलेगी।

20 अप्रैल

आज मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में शहर निकाला गया। यह शहर अच्छी गुणवत्ता का है। इस क्षेत्र के शहर केर नए परीक्षण के लिए भेजे और बाकी हमारे सुबह के मात्रकों के लिए भेज दिया।

25 अप्रैल

आज शारमद के क्षेत्रों से भी शहर निकाला। इसकी गुणवत्ता की जांचने के लिए समीक्षा की स्काइव करत किया। वह हमें परीक्षण के लिए खाने दिखे भेज रही है। इसमें से कुछ दिखे खाने खाना भेजने वाली कंपनी की जांचों और बाकी 20 दिखे लाला सुबह की जांचों।

29 अप्रैल

दरभंगा के शहर परीक्षण के परिणाम खाना गया। यह थोड़े बुद्धिगर्ण है। परंतु लाने केर कि हम बार-बार होने वाली गलती का खेदागत नहीं लाना सकते लेकिन कीशेबा उत्तर कर सकते हैं।

May

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

1. मई

आज केर के जानकारों के साथ दरभंगा के सेतो की फिर से फिर से फिर से फिर से हम यहाँ की बाहर निकालने की प्रक्रिया में सुधार कर सके।

1. May

Examining our Darbhanga fields today with KVK professionals to see how we can improve our processes there.

5. मई

आज मेरा जन्मदिन है। आज घर पर रहकर मैं स्टोव पर शहर केक बनाऊंगी, उसके बाद दिन भर मेरी पसंदीदा किताब पढ़ी सोच का जादू पढ़ूंगी। हुंसे !!!

5 May

It's my birthday today - going to stay in and bake a honey cake on the stove. Then reading Magic of Thinking Big all day.

6. मई

मैं और पापा ने जन्मदिन पर आनंदक घर आकर मुझे अन्न रस का स्वाद बड़ा तोहफा दिया। आज मैं पूरा दिन उसके साथ बिताऊंगी।

6 May

My parents surprised me by dropping in for my birthday, spending the day today with them.

11 मई

आज दरभंगा के सेतो से शहर निकलना। इस बार का शहर वैश्वीय था। यह जमा ही सुनहला था जिना अदिक शहर हीना पहिण।

11 May

Darbhanga extraction day today. The batch was fresh and beautiful, golden as organic honey should be!

16. मई

मुजफ्फरपुर के सेतो से शहर निकालना नाया।

16 May

Extraction in the Muzaffarpur fields today.

19. मई

मुजफ्फरपुर के सेतो के निकलने वाले ज्य-कसरा खराब हो गए हैं। हम इस बार की टैकर छोड़ें दुबली भी हूँ पर बाब में शहरा हेंसे भी दरभंग मधुमत्सिओं के पीछे आते-आते असाभा इस पर गिर पड़ी। हम सब कहके लगार कर हेंसे यहाँ रस की आसमा भी।

21. मई

आज सारे साझेदारों के साथ मिलकर ज्यकसरा खरीदने जाया है। हम सब जासों। बहुत अच्छा असर है सब साथ मिलकर चर्चा करेंगे।

26. मई

आज शहराउ से नरा शहर का बैच आया। हम संगीता की पकेनति कर रहे हैं और ज्यार का बिस्तर करने के लिए एक और हेसम को नैकरी पर रख रहे हैं।

27. मई

नरा बटलन को जागू करने शहराउ जा रहे हैं। मलाला गाड़ी चलानगी, हम सबक यारा पर जासों।

29. मई

हमारे केसबुक पर 500 टाइकस आ गए, मुझे तारीफ पर गर्व है कि ऐसे यह सब संभालना। हम काफी कुल स्निख गए हैं।

21. May

मुजफ्फरपुर क्वैर के निकलने वाले उकका खराब हो गए हैं। हम इस बात को लेकर थोड़े दुबली भी हूँ पर बाद में थोड़ा हेंसे भी दरभंग मधुमत्सिओं के पीछे आते-आते असाभा इस पर गिर पड़ी। हम सब वहाँ के ताग कर हेंसे यहाँ तक की आसमा भी।

21. May

Buying new equipment today with the partners. We're all going, it's a good opportunity for us to meet up and brainstorm.

26. May

New batch of honey coming in from Shahrada. We're promoting Sangeeta and hiring another team member with her to expand.

27. May

Leaving for Shahrada to effect the new changes. Malala is driving me, we're going to go on a roadtrip!

29. May

Our facebook hit 500 likes today. I'm so proud of Tarini for taking the charge on this. We really have grown through our journeys.



कौशलों की गिरीशिका

GLOSSARY OF SKILLS



आत्म-अनुशासन : लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतरता के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की खुली होना जरूरी है। अनुशासित लोग अपने द्वारा बनाए गए नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं। वे समय का सदुपयोग करते हैं।

Self-discipline: When you have discipline, you are able to work hard and work consistently to make sure you achieve your goals. Discipline means never wavering from the routine you've set for yourself. To be in control of your day.

लोगों को प्रभावित करना : अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी बेहतरीन योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आज कौन-सी योजना लोगों तक पहुंचाओगे?



Impacts a lot of people: You want to change the world right? You have to ensure your great sustainable ideas reach the maximum number of people. What big idea will you take to many people today?



ईमानदार रहना : हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका मन साफ हो। अपने मन के भाव और जीवन की घटनाओं को न छुपाएं। अगर मन साफ रखेंगे तो कभी खुद पर संदेह नहीं होगा।

Being truthful: Honest. Being truthful about your feelings, about events, about everything can ensure that you have a clear conscience. With a clear conscience, you never have to doubt yourself.

गुरु : आपके गुरु आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करते हैं, आपको मुश्किल समय में रास्ता दिखाते हैं और जिन्दगी के बारे में बताते हैं। कभी-कभी वे लोग भी हमारे गुरु बन जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप भी एक दिन किसी के गुरु बनेंगे।



Mentor: Mentors can help us discover solutions to our problems, guide us on the path we want to take and provide insight. Sometimes, the unlikely people can become our mentors. You will also go on to be someone else's mentor.

चिंता : चिंता बहुत आम समस्या है। चिंता होने पर सांस तेज हो जाती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा होने पर लंबी साँसें लें और छोड़ने वक़्त 8 तक गिनें। फिर इसे एक बार और दोहराएं।



Anxiety: Anxiety is a normal obstacle. Your breath may quicken and your heart may beat rapidly. Everyone feels that way sometimes. Take a deep breath and count till eight as you breathe out. Then repeat it once more.



जांच करना : हमेशा प्रक्रिया की जांच करें और अधिक से अधिक जानकारी निकालें। जानकारी जितनी ज्यादा होगी, समस्या का समाधान निकालना उतना ही आसान होगा।

Follow up: Follow up and find out more. Always find out more. The more you know, the easier a problem is to solve.

जीने की आजादी : खुल कर लिएं। औरों को भी खुल कर जीने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा व्यक्ति बनाएं कि लोग आप पर विश्वास करें। आप इस दुनिया में कैसा जीवन जीना चाहेंगे? क्या आप समस्याओं को सुलझाकर दुनिया को बेहतर बनाना चाहेंगे?



Freedom to live: Live freely. Encourage others to live freely. Be authentic. How do you want to exist in the world? Breathe the air? Say your piece? Solve problems and make a difference?



डिजाइन शिकिा : यह समस्या को सुलझाने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले एक समस्या को खोजो। उसके बाद समस्या का कारण पता लगओ। फिर उस पर सक्षिा में लिखो। फिर अपने अनुसंधान से निष्कर्ष निकालो। उसके बाद अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल नीति बनाओ। अपने प्रोटोटाइप मॉडल नीति के बारे में लोगों से चर्चा करो और उनके विचार जानो। उसके बाद अपने मॉडल में सुधार करो। उसे एक बार उन लोगों पर आजमाओ जिन्होंने समस्या का कारण बताया था। समस्या सुलझाओ। डिजाइन शिकिा मानव केंद्रित प्रक्रिया है और यह किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए और व्यवसायी बनने के लिए आवश्यक है।

Design thinking: It is a creative, problem-solving process that has several steps. a. Identify a problem. b. Do research with people to find out why that problem exists. Take notes. c. Crunch your data. d. Make a prototype model and/or strategy to solve the problem. e. Test by taking your prototype/model/strategy to people to ask what they think of it. f. Make changes to your model. g. Test it one more time with the people who told you why the problem exists. h. Make it! Following a design-thinking or human-centred design process is the key to solving any problem and becoming an entrepreneur.

दृढ़-संकल्प लेना : यह करना कठिन है क्योंकि एक उड़मी बनना या जोखिम उठाना आसान नहीं होता। तुम कई बार असफल होगे, तुम्हारी योजनाओं में समस्याएँ आरंगी। किसी ने यह तक कहा है कि अगर तुम असफल नहीं हो रहे हो तो तुम जरूरत से कम जोखिम उठा रहे हो। और हार मानने पर तो असफलता निश्चित ही होती है। दृढ़ संकल्प होना सफलता की कौड़ी है।



Be determined: This is the hard part because being an entrepreneur, adventurer and risk-taker is not easy. You will fail a little bit, you'll get delayed. Someone once said if you're not failing you are not taking enough risks. Also, if you give up for sure, you will fail. Being determined is the key to succeeding in most things in life.



जिम्मेदारी : क्या तुम खुद की जिम्मेदारी ले सकते हो? अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। सिर्फ वही लोग किसी लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
Responsibility: How much responsibility can you take? Those who are responsible and take responsibility are those who make a difference.



नया अनुभव : नई चीजों को सीखने के लिए नए अनुभव जरूरी होते हैं। हर एक रोमांच भरे अनुभव में इस दुनिया के प्रति नज़रिया बदलने की क्षमता होती है और इस सबसे मानसिक विकास भी होता है।
New experience: New experiences are a key aspect of learning new things. Every adventure can change the way you see the world and expand your perspective.




परिवर्तन : जिंदगी और चुनौतियां हमें बेहतर, दयालु और साहसी बनाती हैं।
Transformation: Life and challenges transform us into better, braver, kinder versions of ourselves.



पुनः शुरुआत : संघर्ष ही नायक बनाता है। असफलता से मत हारो, नई शुरुआत करो।
Start afresh: All heroes face difficulties and have to choose between carrying the burden of their failures or making a fresh departure. Start afresh, make a new start today.



पहल करना : आप क्या होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब समय आ गया है। अभी करो! किसी और के पहल करने की प्रतीक्षा मत करो। हर किसी के पास पहल करने का मौका है, क्यों न आप ही कर लें?
Taking initiative: Who or what are you waiting for? The time is now. Do it! Don't wait for someone else to go first, everyone has a chance to go first, why don't you?



मदद आती है : ज़रूरत पड़ने पर मदद खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बस संकेतों को पहचानने के लिए अपने आँख कान खुले रखना।
Aid arrives: Help can find its way to you just when you need. Just pay attention to the signs, keep your eyes and ears peeled.



योजना बनाना : हर साहसिक कार्य के लिए योजना आवश्यक होती है। एक पैन और नोटबुक उठाओ और उसमें सारी जानकारी लिखो। पूरी योजना बनाओ। इससे तुम्हें पता होगा कि आगे क्या और कैसे करना है। इससे समझ आएगा कि किन लोगों की और किस प्रकार के कौशल की आपको जरूरत है।



रोजमर्रा का जीवन : हर पल जो भी घट रहा है, सब में अपना ही जादू है। जिंदगी में जो हो रहा है, सब जरूरी है। हर पल वर्तमान में रखा।
Mundane life: Everyday things. Mundane moments. Everything has magic. Everything is important. Be present in every mundane second.



रोमांच का समय : जब लक्ष्य और रोमांच दरवाजे पर दस्तक देते हैं।
Call to adventure: When adventure comes knocking on your door with a mission.



लगातार अभ्यास करें : आप जो कुछ भी करें, उसे दोबारा करें। उसे फिर दोहराएं। बार-बार दोहराएं। किसी भी काम को बार-बार करने से उसमें कौशल हासिल होता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। साहसिक कार्यों में भी निरंतरता आवश्यक होती है।
Train. Be consistent: Do something. Then do it again. Then again. Over and over. Consistency means doing something over and over so you get better at it over time. Goals need consistency. Adventures need consistency.



विरोध : जिन्दगी में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें मना करेंगे या नीचा दिखाएंगे। वे तुम्हारे लक्ष्य के बीच रास्ते का काँटा बनेंगे। विरोध कहीं से भी हो सकता है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
Opposition: Often, there will be people who say no or try to put you down. They may resist or stop you from achieving your goals. Opposition can come from anywhere. It's so important to stand up to it.



सकारात्मक लोग : अगर जिन्दगी को देखने का नज़रिया सकारात्मक है, तो हर चीज़ में अच्छाई ही दिखेगी। बुराईयों को नज़रअंदाज़ करके अच्छाईयों पर ध्यान देने पर अच्छी चीज़ें होना बढ़ जाती हैं।

Positive people: If you have a positive outlook, you'll be able to see the upside in everything, conquer anything. When you focus on the good instead of the bad, more good things happen.



संवाद कौशल : लोग बात करने से एक-दूसरे को समझ पाते हैं। अगर कुछ सही न लगे तो उसके बारे में बात करो, किसी भी गलत चीज़ को सही करने का तरीका निकालो, संवादनशील रहो लेकिन ईमानदार भी। क्या आप जानते हैं कि हम जो भी कहते हैं उसका 80 प्रतिशत संचार हमारे शारीरिक हाव-भावों से होता है? अपने हाथों का प्रयोग किए बिना बोलने का प्रयास करें। आज आप किस विषय पर अपनी आवाज़ उठाएंगे?

Communication: When people talk, we understand each other. Speak up if something is not right, find the right way to correct what's wrong, be kind but also honest. Did you know that 80% of what we say is communicated through our body language? Try talking without using your hands. What will you speak up for and about today?



सामूहिक कार्य : जब समूह मिलकर काम करता है तो बहुत सारी योजनाएं, विचार, सकारात्मकता और मदद होती है। सामूहिक कार्य से बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं लेकिन उसके लिए धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है।

Teamwork: Working with others means you have more ideas, more feedback, more positivity and more help. Teamwork can lead to excellent results but it needs patience and sometimes, a little effort.



एक जैसी घटनाएं : वे घटनाएं जो एक ही समय पर, एक ही भाव में या एक ही तरीके से होती हैं।

Synchronistic events: Events that unfold in parallel moods, times and manners.



हार न मानना : मुश्किलें बढ़ जाने पर काम जारी रखना आसान नहीं होता लेकिन ऐसे समय पर हार न मानने वाले की ही जीत होती है।

Never giving up: When things get hard, it's not easy to push through always. Refusing to give up at a time like that is the key to winning over your challenges.



स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर तुम स्वस्थ हो तो समस्याओं को सुलझा सकते हो, जलवायु परिवर्तन का समाधान कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारा पानी पियो, अपनी जांच कयाने डॉक्टर के पास जाओ, स्वस्थ भोजन खाओ। स्वस्थ जीवन जियो।

Health: Health is everything. If you're healthy, you can solve problems, resolve Climate Change, help others and make the world better. Drink loads of water, go to the doctor for check ups and eat healthy. Be healthy.





Going to School
INDIA

